



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 16—जून 22, 2007 (ज्येष्ठ 26, 1929)

No. 24]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 16—JUNE 22, 2007 (JYAISTHA 26, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग I—खण्ड 4

#### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 2007

सं. 289, दिनांक 23 मई 2007--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01 मार्च, 2007 के का.ज्ञा. संख्या 5/8/2006-सी एस-2 के तहत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) (निजी सचिव) के पद पर पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड "ग" श्री राजेन्द्र प्रसाद को निम्नलिखित शर्तों के अधीन 30 मार्च, 2007 के पूर्वाह्न से 30 जून, 2007 तक या नियमित अधिकारी उपलब्ध होने तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6,500-200-10,500/- रूपए के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) के पद पर नियुक्त करते हैं :-

- (i) तदर्थ नियुक्ति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

- (ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

एस. के. देब  
अवर सचिव

(वित्त प्रभाग)

सं. 290, दिनांक 24 मई 2007--राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा (1996) के अधिकारी श्री टी. रामबाबू को दिनांक 1 मई, 2007 के पूर्वाह्न से 30 अप्रैल, 2011 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में उप वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रीमती प्रवीन लता सहगल को रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में सहायक वित्तीय सलाहकार (अवर सचिव) के रूप में दिनांक 29 मार्च, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

रमेश कुमार  
निदेशक (वित्त/स्थापना)

थल सेना मुख्यालय

(क्यूएमबी ब्रांच)

सं. 291, दिनांक 24 मई 2007--राष्ट्रपति सहर्ष सशस्त्र सेना, मुख्यालय, सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को अनुभाग अधिकारी (ग्रुप "ख" राजपत्रित) (वेतनमान रु. 6,500-10,500) के पद पर दिनांक 30 अप्रैल 2004 (पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं :-

(क) श्री आर एस नायर

(ख) श्री टी सुरेश कुमार

राष्ट्रपति सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों (ग्रुप 'ख' अराजपत्रित) को अनुभाग अधिकारी (ग्रुप 'ख' राजपत्रित) वेतनमान रु. 6,500-10,500/- के पद पर उनके नाम के आगे अंकित तिथि से नियुक्त करते हैं :-

- (1) श्री जितेन्द्र हीरा --29 जुलाई 2005
- (2) श्री राहुल भारद्वाज --31 मार्च 2006
- (3) श्री आर के सिंह --13 जुलाई 2006
- (4) श्री आशीष सेठी --29 दिसम्बर 2006

शंकर सिंह

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा.)

सेना शाखा

सं. 292, दिनांक 24 मई 2007--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष नियुक्त करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

ले. कर्नल बनाया जाता है :

- मेजर ए एस शोली (टीए-41762), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
- मेजर आर के एन परमार (टीए-41766), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
- मेजर बी डी यादव (टीए-41790), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
- मेजर ए एस बाजवा (टीए-41793), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
- मेजर एस कुमार (टीए-41796), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
- मेजर प्रायोभाष डे (टीए-41803), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
- मेजर एच के सायल (टीए-41833), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
- मेजर बी पी एस चौहान (टीए-41842), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
- मेजर पी के बर्मा (टीए-41843), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
- मेजर आर एस पान्डे (टीए-41844), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
- मेजर ए के सहाय (टीए-41848), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
- मेजर आर कुमार (टीए-41863), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004

मेजर एस जी शर्मा (टीए-41874), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004

मेजर एस के सिंह (टीए-41880), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004

मेजर एस एस गर्ग (टीए-41892), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004

मेजर आर एल जांगिद (टीए-41893), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004

मेजर एन डी विकास (टीए-41895), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004

एन. कालियप्पन

अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 293, दिनांक 28 मई 2007--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दर्शाये गए दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में एक वर्ष की परखावधि पर अस्थायी वैज्ञानिक 'सी' (ग्रुप 'ए') के रूप में वेतनमान रु. 10,000-325-15,200 पर :-

क्र. सं.	नाम	स्थापना	दिनांक
1	2	3	4
1.	डा. (कु.) ललिता गुप्ता	लासटेक, दिल्ली	04.12.2003
2.	डा. वीरबुतिरन एस	--वही--	16.08.2004
3.	डा. हरिकृष्णन एम	एन.पी.ओ.एल., कोच्ची	05.08.2004
4.	डा. इन्द्रकान्ती प्रेम कुमार	इनमास, दिल्ली	17.08.2004
5.	डा. (कु.) मृगलिनी	डीपास, दिल्ली	26.04.2005
6.	श्रीमती एस गीता	--वही--	28.06.2004
7.	डा. देबमाल्य राय	डीएमएसआरडीई, कानपुर	10.08.2004
8.	डा. (कु.) विनीता निगम	--वही--	02.07.2004
9.	श्री तपन खिलरीवाल	डेबेल, बैंगलोर	23.02.2004
10.	श्री आशुतोष केदार	एलआरडीई, बैंगलोर	04.11.2003
11.	श्री उपदेश शर्मा	पीएक्सई, चौंदीपुर	15.09.2003
12.	डा. ई वरदाराजन	एसएसपीएल, दिल्ली	27.08.2004
13.	डा. (कु.) सोनाली चोपड़ा	--वही--	20.01.2005
14.	डा. (श्रीमति) पुष्पश्री मिश्रा	--वही--	15.04.2004
15.	डा. (श्रीमति) रेखा चौधरी	लासटेक, दिल्ली	07.02.2005
16.	श्री जी वेंकटेशन	सीवीआरडीई, चेन्नै	01.10.2003
17.	श्री दीपक गुप्ता	डेयर, बैंगलोर	19.07.2005
18.	डा. (कु.) लक्ष्मी एस	ए डी ई, बैंगलोर	13.07.2005

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दर्शाये गए दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थायी

वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के रूप में वेतनमान रु. 8,000-275-13,500 पर :--

सं.	नाम	स्थापना	दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री रायाबरापू सुधाकर	ए एस एल, हैदराबाद	12.04.2004
2.	श्री गद्दम कमलाकर	--वही--	12.04.2004
3.	श्री कल्याण चक्रवर्ती वेडूला	--वही--	12.04.2004
4.	श्री पशूपुलेटी सुरेश बाबू	--वही--	12.04.2004
5.	श्री कल्याण कृष्ण लोला	--वही--	12.04.2004
6.	श्री विपिन कुमार	--वही--	28.08.2003
7.	श्री अनेमल्ला भूपति	--वही--	13.06.2002
8.	श्री मोहम्मद आरिफ खॉन	--वही--	06.03.2003
9.	श्री मिस हमसाध्वनि पी	--वही--	12.04.2004
10.	मिस सीमा परमार	--वही--	03.11.2003
11.	श्री बल्ला रमेश	--वही--	13.05.2002
12.	श्री हरिश बबलराव सखारकर	--वही--	12.04.2004
13.	श्री कम्मारी वीरा ब्रह्म	--वही--	23.09.2002
14.	श्री पुनीत आनन्द	डी आर डी एल, हैदराबाद	06.09.2004
15.	श्री चिमाकुर्ती श्रीकांत	--वही--	06.09.2004
16.	श्री मोरे रोहित रावसाहब	--वही--	06.09.2004
17.	श्री विवेक आर	--वही--	06.09.2004
18.	श्री मनीष कुमार दीवांगन	--वही--	06.09.2004
19.	श्री सप्तर्षि मंडल	--वही--	06.09.2004
20.	मिस भवनीत	--वही--	06.09.2004
21.	श्री पकीरुजा पोदुगु	--वही--	06.09.2004
22.	श्री वी पुरियानन्दन	--वही--	06.09.2004
23.	श्री मकवाना दिलीपकुमार जयंतिलाल	आर एण्ड डी (ई), पुणे	12.04.2004

पी. सारथ  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 294, दिनांक 24 मई 2007--भारत के राष्ट्रपति, अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में (1 मई 2007 से प्रभावी) निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

अवैतनिक नौ सेना, एडीसी

वाइस एडमिरल जगजीत सिंह बेदी, प.वि.से.मै., उ.यु.से.मै, अ.वि.से. मै, वि.से.मै (01002-ए)

एस. डी. बांगा  
भवर सचिव

नेवी ब्रांच

एकीकृत मुख्यालय (नौसेना)

सं. 295, दिनांक 24 मई 2007--राष्ट्रपति, सहर्ष श्री विनय प्रोवर, वैयक्तिक सहायक, को दिनांक 18.12.2006 से सशस्त्र सेना मुख्यालय की आशुलिपिक सेवा में निजी सचिव (वर्ग 'ख' राजपत्रित वेतनमान रु. 6,500-10,500/-) के पद पर नियुक्त करते हैं :--

शंकर सिंह

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

वायु शाखा

सं. 296, दिनांक 29 मई 2007--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ऑफिसरों (फ्लाईट कैडेट्स) को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबंधों के तहत स्थायी कमीशन तथा विंग्स (परखाधीन) प्रदान करते हैं। ये ऑफिसर स्थायी कमीशन तथा विंग्स (परखाधीन) प्रदान करने की तारीख यानि 18 जून 2005 से उड़ान वेतन पाने के अधिकारी हैं :--

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

भूतपूर्व फ्लाईट कैडेट्स से फ्लाईंग ऑफिसर के रैंक में

फ्लाईंग ऑफिसर आदित्य प्रताप सिंह (28454) और आकाश चेचि (28475), 18 जून 05 से प्रभावी।

फ्लाईंग ऑफिसर पुरोहित नैशाद किरितकुमार (28441), अमरदीप (28443), दनप्रीति पॉल सिंह बाली (28446), परमिन्दर सिंह (28448), अतुल यादव (28450), वैभव कुमार पटेल (28451), अमित कुमार गोयल (28455), प्रवीन कुमार (28458), गौतम चोलयिल (28461), मनीष अरोड़ा (28462), समीर यादव (28463), आदिव्य कादिआन (28464), मचवरपू प्रवीन कुमार (28465), प्रशांत कुमार पांडेय (28466), रवि कुमार डुडी (28468), कार्तिक रमेश (28469), अक्षय बहादुर सक्सेना संगमा (28470), गंता महेंद्रा चार्ल्स (28471), शिव कुमार चौहान (28472), विश्वजीत तंवर (28473), अंकित माथुर (28474), थिन्गुजम सुमन्ता सिंह (28477), पवेल अतुल वसंत (28478), गिरि वर्धन विन्नाकोट (28479), करन डोगरा (28480), रोहित सिंह ठाकुर (28481), अभिजित कुमार (28483), विशाल बंका (28484), चिंतामणी तेलंग (28485), प्रखर श्रीवास्तव (28486), अभिषेक त्रिपाठी (28487), अनुभव राव (28490), राहुल चौहान (28492), नितिन यादव (28493), मयंक कृपाल (28494), ट्रसिटिन जॉर्ज जैकब (28495), अखिल सेठी (28496), योगिन्द्र सिंह तोमर (28497), आदिव्य सिंह सुहाग (28498), रूपेंद्र कुमार मिश्रा (28499), अरूण भोज (28501), मुकुट बासु (28502), स्वधीन कुमार शर्मा (28503), चन्दन भूयो (28504), अनिश नागपाल (28505), पुनीत भाटी (28506), वरून भोज (28507), 18 जून 2005 से प्रभावी।

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित ऑफिसरों (फ्लाईट कैडेट्स) को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबंधों के

तहत् स्थायी कमीशन तथा ब्रेवेट्स (परखाधीन) प्रदान करते हैं। ये ऑफिसर स्थायी कमीशन तथा ब्रेवेट्स (परखाधीन) प्रदान करने की तारीख यानि 18 जून 2005 से उड़ान वेतन पाने के अधिकारी हैं:--

भारतीय वायु सेना

उड़ान (नेवीगेटर) शाखा

भूतपूर्व फ्लाईट कैडेट्स से फ्लाईंग ऑफिसर के रैंक में

फ्लाईंग ऑफिसर विपुल कुमार (28444), अशोक कुमार (28447), सौम्य सूर्य रथ (28460), विजय कुमार नेहरा (28467), नितिन शर्मा (28488), भार्गवा अनिमेश ललित (28491), अतुल सिन्हा (28508), और धीरज प्रताप सिंह (28509), 18 जून 2005 से प्रभावी।

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित ऑफिसर को उनके नाम के सामने दी गई तिथि वायु सेना आदेश 59/98 के उपबंधों के तहत् स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

भूतपूर्व फ्लाईट कैडेट्स से फ्लाईंग ऑफिसर के रैंक में

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर हरि चिदम्बरम (28510), श्याम सुंदर श्रीवास्तव (28511), कार्तिकेयन जी (28512), रघुनाथ पी (28513), विजय कुमार गणेशन (28514), सुन्दर वेंकटासुब्रमन्यन (28515), वरून सैनी (28516), सुसान्त डे (28517), सासनपुरी गोपी (28518), धनराज गावन्कर (28519), झूलन कुमार सिंह (28520), विरेन्द्र प्रकाश (28521), स्टान्ल जॉन कैथ्यपरमबिल (28522), अब्राहम पंकज (28523), बीजेन्द्र सिंह राणा (28524), गिरराज किशोर (28525), अरूण कुमार वर्मा (28526), बलजीत सिंह (28527), अजीत सिंह यादव (28528), सुबाश सुन्दरसन (28529), पारस अप्रवाल (28530), सजल कुमार उपाध्याय (28531), सिजो कोल्लानूर जोस (28532), जय सिंह राणा (28533), पादला फणीभूषण डोरा (28534), मनोज कुमार कपिल (28535), शर्मा अभिषेक सम्भू दयाल (28536), दिपांकर (28537), भूपेन्द्र सिंह अत्रि (28538), अनूज कलाम् (28539), रावत अरविंद सिंह (28540), कृष्ण कुमार वी (28541), शैक हसीनुल हक (28542), सुनील कुमार एस (28543), जी चन्द्रशेखर (28544), अमन विकर्क (28545), गुरूदास पति (28546), और अंकुर दरबारी (28547) 18 जून 2005 से प्रभावी।

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित ऑफिसर को फ्लाईंग ऑफिसर के रैंक में उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वा से मु/24745/4/ पी पी (ओ)/पी सी I/184/डीएस/एयर-III तारीख 23 अप्रैल 2001 के उपबंधों के तहत् औपबंधिक अल्पकालीन सेवा कमीशन तथा विंग्स प्रदान करते हैं। ये ऑफिसर औपबंधिक अल्पकालीन सेवा कमीशन तथा विंग्स प्रदान करने की तारीख यानि 18 जून 2005 से उड़ान वेतन पाने के अधिकारी हैं:--

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

भूतपूर्व फ्लाईट कैडेट्स से फ्लाईंग ऑफिसर के रैंक में

फ्लाईंग ऑफिसर रूपिका डिल्लन (28564), सोनल शर्मा (28565),

ज्योति यादव (28566), विष्णुप्रिया श्रीनिवासन (28567), और मिताली वत्स (28568), 18 जून 2005 से प्रभावी।

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित फ्लाईंग ऑफिसर को प्रदत्त औपबंधिक अल्पकालीन सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा वायु सेना आदेश 59/98 और वायु सेना निर्देश 2/73 के शुद्धि पत्र 10/84 के उपबंधों के तहत् उनके नाम के सामने दी गई तिथि से स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

ए इ (एम) शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर कृष्णादास एस (28362) 30 जून 2006 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ऑफिसर को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वा से मु/24745/4/पी पी (ओ)/पी सी I/184/डी एस/एयर-III तारीख 23 अप्रैल 01 के उपबंधों के तहत् औपबंधिक अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

भूतपूर्व फ्लाईट कैडेट्स से फ्लाईंग ऑफिसर के रैंक में

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर माया के नायर (28569), वन्दना यादव (28570), सुदेशना चक्रवर्ती (28571), प्रीति ओझा (28573), भोपाली बिश्वास (28574), पल्लवी अरुन (28575), किरन नेगी (28576), रुचि शर्मा (28577), गरिमा बिस्ट (28579), और निधि शर्मा (28580), 18 जून 2005 से प्रभावी।

लेखा शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर राजीव कौर (28581), आरोहि भट्टाचार्यी (28582), प्रियंका राजन जोशी (28583), निधि श्रीवास्तव (28584), श्वेता प्रवीन जैन (28585), मुकेश कुमारी (28586), इन्दु गौतम (28587), और भावना यादव (28588), 18 जून 2005 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर अदीति अरुनकुमार यादव (28589), दीपिका रावत (28590), अल्का चौधरी (28591), राजलक्ष्मी पृथ्वीराज (28592), और वन्दना दीक्षित (28593), 18 जून 2005 से प्रभावी।

एन. विजय कुमार

विंग कमांडर

जेडीपीओ. 3 (डी)

सेना शाखा

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं. 297, दिनांक 24 मई 2007--राष्ट्रपति, महोदय स से मु सिविल सेवा नियम 2001 के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानापन्न अधिकारियों की

नियुक्ति की अवधि 24 फरवरी 2007 से 23 अगस्त 2007 तक अथवा नियमित पदधारी मिलने तक बढ़ाने के लिए सहर्ष मंजूरी प्रदान करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि
1	2	3
1.	श्री के सी भरद्वाज	22 फरवरी 1959
2.	श्री सीता कान्त मिश्र	25 जनवरी 1962
3.	श्री एस के जैन	11 दिसम्बर 1963
4.	श्री पी जे रोस	19 जून 1967
5.	श्रीमती अनीताकुमारी	01 जनवरी 1967
6.	श्री अलोक गर्ग	12 जून 1963
7.	श्री एम शामराज	25 सितम्बर 1949
8.	श्री गुलशन राय	30 अक्टूबर 1968
9.	श्री ए के एल दास	26 जनवरी 1966
10.	श्री के एन प्रसाद	26 अक्टूबर 1965
11.	श्री देश राज	05 अक्टूबर 1955
12.	श्री दीपक कुमार दास	01 अगस्त 1966
13.	श्री रमिन्दर सिंह	29 मई 1969
14.	श्री रजनी मोहन गुप्ता	10 जनवरी 1949
15.	श्री भगवान सिंह चौहान	03 जुलाई 1947

2. नियुक्ति पूर्ण रूप से कामचलाऊ आधार पर है और प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित पदधारी मिलने पर बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है।

3. स.से.मु. सिविल सेवा नियम 7(8) के अंतर्गत पदोन्नति/नियुक्ति के लिए कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा एवं ऐसी नियुक्ति की अवधि को उप निदेशक के ग्रेड में वरिष्ठता के लिए नहीं गिना जाएगा।

शंकर सिंह  
उप मुख्य प्रशा. अधिकारी

राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं. 298, दिनांक 28 मई 2007--नीचे दिए गए कुलपतियों के राष्ट्रीय कैडेट कोर में अवैतनिक कर्नल का रैंक दिया जाता है और उन्हें उनके संबंधित विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि

2-104GI/2007

तक के लिए कर्नल कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है जैसा कि उनके नाम के सामने दर्शाया गया है :-

क्र. सं.	कुलपति का नाम	निदेशालय का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	कुलपति के पद पर नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4	5
1.	प्रो. रामा राव अथोट, कुलपति	ए. पी.	श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, अनन्तपुर	10 अगस्त 05
2.	प्रो. ओम प्रकाश, कुलपति	यू. पी.	एम जे पी रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली (यू. पी.)	10 दिसम्बर 05
3.	प्रो. आर. पी. अग्रवाल, कुलपति	यू. पी.	बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झांसी (यू. पी.)	06 दिसम्बर 05
4.	प्रो. पंजाब सिंह, कुलपति	यू. पी.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	03 मई 05
5.	श्री सी पी बर्थवाल, कुलपति	यू. एन.	कुमार्य विश्वविद्यालय नैनीताल	07 अगस्त 06
6.	प्रो. (डॉ.) जी तिस्वासगम, कुलपति	टी एन पी एवं ए एन	भारतीय महाविश्व-विद्यालय, कोयम्बदूर	10 अगस्त 06
7.	प्रो. के एम कावेरियाप्पा, कुलपति	कर्नाटका एवं गोवा	मंगलौर विश्वविद्यालय कर्नाटका	12 जनवरी 06
8.	डॉ. बी एस शेरगिल, कुलपति	कर्नाटका एवं गोवा	क्यूबेंपु विश्वविद्यालय कर्नाटका	18 मई 06
9.	डॉ. एन के जैन, कुलपति	राजस्थान	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	01 अक्टूबर 05
10.	डॉ. पी चन्द्रमोहन, कुलपति	के. एवं एल.	कण्णूर विश्वविद्यालय,	28 फरवरी 05

यू. के. धर  
ब्रिगेडियर  
उप महानिदेशक (एमएस)

सं. 299, दिनांक 23 मई 2007--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियों करते हैं :-

नियमित सेना

तोपखाना रेजिमेन्ट

सबस्टैंटिव सूबेदार (आर टी) के पद में

नायब सूबेदार अशोक कुमार तिवारी (जेसी-256697पी), 18 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार महावीर शर्मा (जेसी-258755एम), 20 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005\*

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय (जेसी-258759एच), 10 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005 \*

नायब सूबेदार रामाश्रय प्रसाद मिश्रा (जेसी-258760एक्स), 07 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005 \*

नायब सूबेदार अरुण कुमार सिंह (जेसी-258757एक्स), 05 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005 \*

नायब सूबेदार चक्राधर पाण्डेय (जेसी-258981के), 22 फरवरी 2006/13 जनवरी 2006 \*

नायब सूबेदार ऋषी कुमार शुक्ला (जेसी-258979एम), 15 फरवरी 2006/13 जनवरी 2006 \*

नायब सूबेदार आनंद प्रकाश (जेसी-258980एफ), 27 फरवरी 2006/13 जनवरी 2006 \*

नायब सूबेदार नारायण दत्त मिश्रा (जेसी-258978के), 13 फरवरी 2006/13 जनवरी 2006 \*

नायब सूबेदार उमा कान्त तिवारी (जेसी-258747एन), 04 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 \*

नायब सूबेदार गोविन्द कुमार (जेसी-258983पी), 10 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006 \*

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद मैथनी (जेसी-258985ए), 01 जून 2006

नायब सूबेदार कमलेश प्रसाद मिश्रा (जेसी-258987एल), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार गोविन्द चतुर्वेदी (जेसी-258988एन), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार उमेश कुमार त्रिपाठी (जेसी-258989डब्ल्यू), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार ओम प्रकाश पाण्डेय (जेसी-258986एच), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार विजय कुमार शुक्ला (जेसी-259462एन), 07 जनवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार राज किशोर पाण्डेय (जेसी-259459एन), 01 जनवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार महेन्द्र कुमार शुक्ला (जेसी-259460एच), 05 जनवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार राघवेन्द्रा दत्ता पाण्डेय (जेसी-259461एल), 11 जनवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार बाबू राम शर्मा (जेसी-259606एल), 06 जनवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार कालू प्रसाद मिश्रा (जेसी-259605एच), 08 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 \*

सबस्टैंटिव सूबेदार (जीडी) के पद में

नायब सूबेदार देविन्दर सिंह (जेसी-265567एन), 28 अक्टूबर 2006/01 जुलाई 2006 \*

नायब सूबेदार हरमिन्दर सिंह (जेसी-266996एफ), 09 अक्टूबर 2006/10 अगस्त 2006 \*

नायब सूबेदार अत्तर लतिफ पाशा माणिक (जेसी-267159एफ), 10 अक्टूबर 2006/15 अगस्त 2006 \*

नायब सूबेदार समर सिंह (जेसी-266524एल), 03 अक्टूबर 2006/01 सितम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार भगवन्त सिंह (जेसी-266672डब्ल्यू), 01 फरवरी 2007/01 सितम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार धनपत सिंह (जेसी-265504एल), 11 जनवरी 2007/01 नवम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार मनेजर राम (जेसी-265957डब्ल्यू), 10 मार्च 2007/01 जनवरी 2007 \*

नायब सूबेदार जयपाल कोरी (जेसी-265974डब्ल्यू), 23 फरवरी 2007/01 नवम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार अवदेश कुमार सिंह (जेसी-265501एक्स), 25 फरवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार बाबू लाल (जेसी-266038एन), 17 फरवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार दान सिंह (जेसी-265837एक्स), 08 मार्च 2007/01 दिसम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-266992एल), 23 दिसम्बर 2006/01 दिसम्बर 2006 \*

नायब सूबेदार बच्चू सिंह (जेसी-266679ए), 18 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 \*

नायब सूबेदार राम किशन (जेसी-266878एन), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार सन्त लाल (जेसी-267590ए), 17 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 \*

नायब सूबेदार भवानी दत्त (जेसी-267435वाई), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार जमदाडे मारुती बालू (जेसी-267442पी), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार हरी सिंह यादव (जेसी-267504के), 23 फरवरी 2007/4 फरवरी 2007 \*

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-267587ए), 26 मार्च 2007/21 फरवरी 2007 \*

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-267568पी), 03 मार्च 2007/01 मार्च 2007 \*

\*(ज्येष्ठता प्राप्त)

## नायब सूबेदार के पद में

हवलदार अमरिक सिंह (सं. 14492932एन अब जेसी-269851एफ),  
14 अगस्त 2006/01 जून 2006\*

हवलदार रनजीत सिंह (सं. 14482046डब्ल्यू अब जेसी-269852के),  
03 नवम्बर 2006/01 जुलाई 2006\*

हवलदार एस जईलू (सं. 14397497वाई अब जेसी-269853एम),  
12 अक्टूबर 2006/01 जुलाई 2006\*

हवलदार रामवीर (सं. 14373912डब्ल्यू अब जेसी-269854पी), 02  
नवम्बर 2006/01 अगस्त 2006\*

हवलदार वैन्गोपाल एस (सं. 14478116एम अब  
जेसी-269855एक्स), 01 अगस्त 2006

हवलदार विरेन्द्र कुमार (सं. 14364907के अब जेसी-269856ए),  
05 नवम्बर 2006/01 अगस्त 2006\*

हवलदार विजय सिंह (सं. 14366602एच अब जेसी-269857एच),  
11 अक्टूबर 2006/31 अगस्त 2006\*

हवलदार गुलाब यादव (सं. 14482318एल अब जेसी-269858एल),  
01 सितम्बर 2006

हवलदार काली सहाय (सं. 14366141के अब जेसी-269859एन),  
27 सितम्बर 2006/01 सितम्बर 2006\*

हवलदार अन्नेपु वेन्कटा राव (सं. 14371320एन अब  
जेसी-269860एच), 01 नवम्बर 2006/01 सितम्बर 2006\*

हवलदार शिव नारायण (सं. 14375192वाई अब जेसी-269861एल),  
01 नवम्बर 2006/01 अक्टूबर 2006\*

हवलदार सहदेव सिंह (सं. 14477014के अब जेसी-269862एन),  
07 नवम्बर 2006/01 अक्टूबर 2006\*

हवलदार नगेन्द्रा नाथ बारो (सं. 14397082के अब  
जेसी-269863डब्ल्यू), 17 नवम्बर 2006/01 अक्टूबर 2006\*

हवलदार एम राजेन्द्रन (सं. 14482233पी अब जेसी-269864वाई),  
06 दिसम्बर 2006/01 नवम्बर 2006\*

हवलदार सूर्या प्रकाश (सं. 15104902एन अब जेसी-269865एफ),  
04 नवम्बर 2006/01 नवम्बर 2006\*

हवलदार हिदय नारायण प्रसाद (सं. 15104506एक्स अब  
जेसी-269866के), 05 नवम्बर 2006/01 नवम्बर 2006\*

\*(ज्येष्ठता प्राप्त)

## सेना वायु रक्षा कोर

## नायब सूबेदार के पद में

आरएचएम ओम प्रकाश चौबे (सं. 14412163के अब  
जेसी-299794ए), 17 नवम्बर 2006/07 नवम्बर 2006\*

आरएचएम पद्मानव साहू (सं. 14412375पी अब  
जेसी-299795एच), 17 नवम्बर 2006/07 नवम्बर 2006\*

आरएचएम तोरलेकर राजाराम जोतिबा (सं. 14367611डब्ल्यू अब  
जेसी-299796एल), 22 नवम्बर 2006/07 नवम्बर 2006\*

आरएचएम बैलीअपा एम एन (सं. 14412442पी अब  
जेसी-299797एन), 22 नवम्बर 2006/07 नवम्बर 2006\*

हवलदार अंग्रेज सिंह (सं. 14406180एन अब जेसी-299798डब्ल्यू),  
01 जनवरी 2007

हवलदार गोरे लाल यादव (सं. 14406208एच अब  
जेसी-299799वाई), 01 जनवरी 2007

हवलदार शक्ति सिंह (सं. 14406809एन अब जेसी-299800एच),  
01 फरवरी 2007

हवलदार बचुटे लक्ष्मन दगडु (सं. 14490547एल अब  
जेसी-299801एल), 01 फरवरी 2007

आरएचएम आर उन्नीकृष्णन (सं. 15113675ए अब  
जेसी-299802एन), 01 फरवरी 2007

आरएचएम सुधीर जी पी (सं. 144085527एन अब  
जेसी-299803डब्ल्यू), 31 जनवरी 2007/13 जनवरी 2007\*

आरएचएम राज नारायण कुशवाहा (सं. 14406459एम अब  
जेसी-299804वाई), 31 जनवरी 2007/13 जनवरी 2007\*

आरएचएम उत्पल मंडल (सं. 14409587पी अब  
जेसी-299805एफ), 29 जनवरी 2007/13 जनवरी 2007\*

आरएचएम फ्रैंक्लीन सी (सं. 15762890एम अब जेसी-299806के),  
29 जनवरी 2007/13 जनवरी 2007\*

हवलदार बप्पादित्या चक्रबर्ती (सं. 14406187एक्स अब  
जेसी-299807एम), 01 फरवरी 2007

हवलदार रमेश कुमार (सं. 14386048के अब जेसी-299808पी),  
01 फरवरी 2007

हवलदार मुन्ना लाल शर्मा (सं. 15102047एल अब  
जेसी-299809एक्स), 01 फरवरी 2007

आरएचएम मोहम्मद आरीफुल इस्लाम (सं. 14411684एन अब  
जेसी-299810एम), 01 फरवरी 2007

आरएचएम उप्पदा वेनू (सं. 14404905के अब जेसी-299811पी),  
01 फरवरी 2007/13 जनवरी 2007\*

आरएचएम राम करना पाल (सं. 14408697एक्स अब  
जेसी-299812एक्स), 03 फरवरी 2007/13 जनवरी 2007\*

आरएचएम देबदुलाल बिश्वास (सं. 15761483एक्स अब  
जेसी-299813ए), 02 फरवरी 2007/13 जनवरी 2007\*

आरएचएम अरविंद कुमार गंगवार (सं. 14408007एच अब  
जेसी-299814एच), 31 जनवरी 2007/07 नवम्बर 2006\*

आरएचएम पांडी दुरई एन (सं. 14411541एल अब  
जेसी-299815एल), 22 नवम्बर 2006/07 नवम्बर 2006\*

आरएचएम ब्रह्मा दीन (सं. 14386348एल अब जेसी-299816एन),  
17 जनवरी 2007/06 नवम्बर 2006\*

हवलदार किशोर कुमार (सं. 14375831पी अब जेसी-299817डब्ल्यू),  
08 दिसम्बर 2006/16 नवम्बर 2006\*

हवलदार गंगा विशन (सं. 14404642डब्ल्यू अब जेसी-299818वाई),  
28 जनवरी 2007/28 नवम्बर 2006 \*

बीएचएम के भूपथी (सं. 14491698डब्ल्यू अब जेसी-299819एफ),  
21 दिसम्बर 2006/01 दिसम्बर 2006 \*

बीएचएम सुखविन्दर सिंह (सं. 14379314पी अब  
जेसी-299820डब्ल्यू), 04 जनवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 \*

बीएचएम भट्ट अनील कुमार जनक लाल (सं. 14384928एफ अब  
जेसी-299821वाई), 18 जनवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 \*

आरएचएम डी धियागाराजन (सं. 14361742एन अब  
जेसी-299822एफ), 27 फरवरी 2007/01 दिसम्बर 2006 \*

हवलदार गिरधारी मंडल (सं. 14496911पी अब जेसी-299823के),  
01 जनवरी 2007

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं. 14367493एन अब जेसी-299824एम),  
09 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 \*

बीएचएम राजेन्द्र प्रसाद (सं. 14487482एक्स अब जेसी-299825पी),  
11 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 \*

हवलदार श्री निवास (सं. 14375005पी अब जेसी-299826एक्स),  
19 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 \*

हवलदार क्रिशन सिंह (सं. 15109342डब्ल्यू अब जेसी-299827ए),  
24 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 \*

हवलदार छित्तर सिंह (सं. 14393964एन अब जेसी-299828एच),  
24 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 \*

बीएचएम महेन्दर नाथ गोगोइ (सं. 14371672एल अब  
जेसी-299829एल), 27 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 \*

बीएचएम जीवन चंद्र (सं. 14367434एफ अब जेसी-299830ए),  
28 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007 \*

बीएचएम चंद्र सिंह कर्पा रबाडे (सं. 14384721एफ अब  
जेसी-299831एच), 01 फरवरी 2007

बीएचएम नागोजी चिक्के (सं. 14361671पी अब  
जेसी-299832एल), 01 फरवरी 2007

बीएचएम अल्बर्ट डी (सं. 14367965वाई अब जेसी-299833एन),  
01 फरवरी 2007

बीएचएम विनय कुमार (सं. 14379303एच अब  
जेसी-299834डब्ल्यू), 06 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 \*

बीएचएम सतपाल सिंह (सं. 14375707एन अब जेसी-299835वाई),  
08 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 \*

हवलदार धिरेन्द्र कुमार सिंह (सं. 14365212एन अब  
जेसी-299836एफ), 08 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 \*

बीएचएम मदन लाल (सं. 14384273ए अब जेसी-299837के),  
08 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 \*

हवलदार सुमेर सिंह (सं. 14373954एच अब जेसी-299838एम),  
21 फरवरी 2007/01 फरवरी 2007 \*

बीएचएम शिव कुमार शर्मा (सं. 14367809पी अब  
जेसी-299839पी), 14 फरवरी 2007

बीएचएम सुनील कुमार किस्कु (सं. 14365520एन अब  
जेसी-299840के), 01 मार्च 2007

आरएचएम सुखजीवन सिंह (सं. 14364559एन अब  
जेसी-299841एम), 01 मार्च 2007

\*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

पी रामा शास्त्री  
अवर सचिव

सं. 300, दिनांक 24 मई 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां  
करते हैं।

स्थायी थल सेना

(सेना चिकित्सा कोर)

स्थायी सूबेदार मेजर (क्लर्क) (जीडी)

सूबेदार ललन कुमार सिंह (जेसी-690737एल), 01 दिसम्बर 2006

सूबेदार रमेश कुमार सुधवाल (जेसी-690735ए), 01 जनवरी 2007

सूबेदार पंचानन्द सिंह (जेसी-690738एन), 01 जनवरी 2007

स्थायी सूबेदार मेजर (चेफ) (हास्पिटल)

सूबेदार ओम प्रकाश सिंह (जेसी-693057डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2006

स्थायी सूबेदार (क्लर्क) (जीडी)

नायब सूबेदार जी एच नबी वानी (जेसी-693310एम), 01 फरवरी  
2007

नायब सूबेदार योग राज शर्मा (जेसी-693312एक्स), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार परमेश्वर (जेसी-693357एक्स), 01 मार्च 2007

स्थायी सूबेदार (एसकेटी)

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-693419एम), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार पूरन सिंह कोटिया (जेसी-693527डब्ल्यू), 01 फरवरी  
2007

नायब सूबेदार नेतई चन्द्र दास (जेसी-693528वाई), 01 फरवरी  
2007

नायब सूबेदार हनुमान सिंह शेखावत (जेसी-693532एफ), 01 फरवरी  
2007

नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जेसी-693558डब्ल्यू), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार होशियार सिंह (जेसी-693581के), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार लक्ष्मी प्रसाद (जेसी-693672एम), 01 मार्च 2007

आर सी रतुड़ी  
अवर सचिव



सं. 301, दिनांक 24 मई 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

ले. कर्नल बनाया जाता है

मेजर एम अरूचामी (टीए-41919), इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

मेजर दीपक सिंह रोका (टीए-41958), इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

मेजर डी जे एस गील (टीए-42010), इन्फैन्ट्री, 04 फरवरी 2005

मेजर इवान सिंह (टीए-42060), इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

मेजर बी एस नागियाल (टीए-42097), इन्फैन्ट्री, 20 जुलाई 2006

मेजर परमजीत सिंह मावी (टीए-42189), इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

मेजर जे एस बरार (टीए-42259), इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

मेजर यश राठौर (टीए-42361), इन्फैन्ट्री, 24 जुलाई 2005

नायब सूबेदार के पद पर पदोन्नति

सं.	वर्तमान टी.जे. सं.	रैंक	नाम	यूनिट	कब से
1	2	3	4	5	6
10182077	टीजे-5533	हवलदार	कृष्ण देव शर्मा	151 पैदल वाहिनी प्रासेना (जाट)	09 मार्च 2007
10302889	टीजे-5534	--वही--	हरगोविन्द्र सिंह	--वही--	--वही--
10260320	टीजे-5535	--वही--	नवल किशोर	120 पैदल वाहिनी प्रासेना (बिहार)	15 मार्च 2007
10260292	टीजे-5536	--वही--	देवेन्द्र पसवान	--वही--	--वही--
10245208	टीजे-5537	--वही--	प्रवीन राय	119 पैदल वाहिनी प्रासेना (असम)	22 मार्च 2007
10245033	टीजे-5538	--वही--	प्रकाश मुक्तान	--वही--	--वही--
10374341	टीजे-5539	--वही--	सुमन कलिंग	107 पैदल वाहिनी प्रासेना (ग्यारह जीआर)	--वही--
10374302	टीजे-5540	--वही--	मनोज तंमग	--वही--	--वही--
10135102	टीजे-5541	--वही--	रामचरण लाल	156 पैदल वाहिनी प्रासेना (पंजाब)	31 मार्च 2007
10362102	टीजे-5542	--वही--	सरूप लाल	155 पैदल वाहिनी प्रासेना (जेक राईफल)	02 अप्रैल 2007
12383304	टीजे-5523	--वही--	बी स्वामी आर	1105 रेलवे इंजी. रेजि. (प्रा. सेना)	27 फरवरी 2007
12384937	टीजे-5524	--वही--	एम एन वेंकट रतनम	--वही--	--वही--
12383447	टीजे-5525	--वही--	एन शिवा रामाकृष्णा	--वही--	26 फरवरी 2007
12384900	टीजे-5526	--वही--	पी सुधाकर	--वही--	--वही--
12384781	टीजे-5527	--वही--	जेड श्रीनिवास राव	--वही--	27 फरवरी 2007
12383389	टीजे-5528	--वही--	एम वी वी रसीद बाबू	--वही--	26 फरवरी 2007
12383429	टीजे-5529	--वही--	बी कोनदा नाइक	--वही--	--वही--
10314832	टीजे-5530	--वही--	शिव कुमार कोरी	157 पैदल वाहिनी प्रासेना (सिख)	01 मार्च 2007
10389907	टीजे-5531	--वही--	अतुल प्रकाश शुक्ला	151 पैदल वाहिनी प्रासेना (जाट)	09 मार्च 2007
10405437	टीजे-5532	--वही--	गणेश चन्द्रा	--वही--	--वही--
10197937	टीजे-5513	--वही--	रनमाल सिंह	153 पैदल वाहिनी प्रासेना (डोगरा)	15 फरवरी 2007
10135294	टीजे-5514	--वही--	चन्द्रवीर सिंह	--वही--	--वही--
1035312	टीजे-5515	--वही--	बाबू राम शर्मा	--वही--	--वही--
10479723	टीजे-5516	--वही--	मुलकित सिंह	103 पैदल वाहिनी प्रासेना (सिखलाई)	20 फरवरी 2007
10479773	टीजे-5517	--वही--	केवल सिंह	--वही--	--वही--

1	2	3	4	5	6
10479892	टीजे-5518	हवलदार	रविन्द्र सिंह	103 पैदल वाहिनी प्रासेना (सिख लाई)	20 फरवरी 2007
10480042	टीजे-5519	--वही--	अवतार सिंह	--वही--	--वही--
10479863	टीजे-5520	--वही--	राम गोपाल शर्मा	--वही--	--वही--
12383395	टीजे-5521	--वही--	एस के नूर अहमद जैनी	1105 रेलवे इंजी. रेजी. प्रासेना	22 फरवरी 2007
12383475	टीजे-5522	--वही--	एस आर मीना	--वही--	26 फरवरी 2007
10390095	टीजे-5502	--वही--	रामचन्द्रा	160 पैदल वाहिनी प्रासेना (जेक राईफल)	11 दिसम्बर 2006
10291077	टीजे-5503	--वही--	हरी कृष्णा वी वी	160 पैदल वाहिनी प्रासेना (जेक राईफल)	11 दिसम्बर 2006
10405364	टीजे-5504	--वही--	सीसुपाल सिंह	114 पैदल वाहिनी प्रासेना (जाट)	15 दिसम्बर 2006
10436961	टीजे-5505	--वही--	राधेश्याम	116 पैदल वाहिनी प्रासेना (पारा)	02 जनवरी 2007
10436987	टीजे-5506	--वही--	बीजू राज वी आर	--वही--	--वही--
10274454	टीजे-5507	--वही--	रमेश सिल	121 पैदल वाहिनी प्रासेना (गढ़वाल राईफल)	04 जनवरी 2007
10245147	टीजे-5508	--वही--	पी एच इनोसिंह	119 पैदल वाहिनी प्रासेना (असम)	16 जनवरी 2007
10245161	टीजे-5509	--वही--	अजित कुमार सिगाहा	--वही--	--वही--
10466725	टीजे-5510	--वही--	धीराज जसवाल	156 पैदल वाहिनी प्रासेना (पंजाब)	24 जनवरी 2007
10466759	टीजे-5511	--वही--	सुखदेव	--वही--	--वही--
10181956	टीजे-5492	--वही--	कालीका राम	157 पैदल वाहिनी प्रासेना (सिख)	03 नवम्बर 2006
10182110	टीजे-5493	--वही--	गंगा प्रसाद	--वही--	--वही--
10420996	टीजे-5494	--वही--	सय्यापा वाड़ीगढ़	115 पैदल वाहिनी प्रासेना (महार)	15 नवम्बर 2006
10182193	टीजे-5495	--वही--	केशव कुमार	111 पैदल वाहिनी प्रासेना (कुमाऊं)	16 नवम्बर 2006
10166335	टीजे-5496	--वही--	मुरगन	110 पैदल वाहिनी प्रासेना (मद्रास)	21 नवम्बर 2006
10212861	टीजे-5497	--वही--	नरायण चन्द्रा	113 पैदल वाहिनी प्रासेना (राजपूत)	30 नवम्बर 2006
10119759	टीजे-5498	--वही--	सोनवान विलास	101 पैदल वाहिनी प्रासेना (मराठा लाई)	--वही--
10274404	टीजे-5499	--वही--	संजय कुमार सिंह	121 पैदल वाहिनी प्रासेना (गढ़वाल राईफल)	11 दिसम्बर 2006
10260363	टीजे-5500	--वही--	राम अवतार दुबे	160 पैदल वाहिनी प्रासेना (जेक राईफल)	--वही--
10315098	टीजे-5501	--वही--	आनंद सिंह	--वही--	--वही--
10260092	टीजे-5477	--वही--	चौधरी पी के राय	154 पैदल वाहिनी प्रासेना	21 सितम्बर 2006
10260263	टीजे-5478	--वही--	दुशाना राउत	--वही--	--वही--
10466694	टीजे-5479	--वही--	कैलाश चन्द्र	102 पैदल वाहिनी प्रासेना (पंजाब)	--वही--
10260279	टीजे-5480	--वही--	चन्द्रकान्ता नाइक	154 पैदल वाहिनी प्रासेना (बिहार)	25 सितम्बर 2006
10182017	टीजे-5481	--वही--	मनीष	--वही--	--वही--
10260193	टीजे-5482	--वही--	करूणाकर पारही	--वही--	--वही--
10212640	टीजे-5483	--वही--	राजकिशोर प्रसाद	113 पैदल वाहिनी प्रासेना (राजपूत)	28 सितम्बर 2006
10212931	टीजे-5484	--वही--	सुबीर कुमार डे	--वही--	--वही--
10452474	टीजे-5488	--वही--	पी सिलवाराज	117 पैदल वाहिनी प्रासेना (गाईस)	23 अक्टूबर 2006
10135151	टीजे-5491	--वही--	विजेन्द्र सिंह	105 पैदल वाहिनी प्रासेना (राज राईफल)	30 अक्टूबर 2006

1	2	3	4	5	6
10452434	टीजे-5467	हवलदार	टी पलाभी	117 पैदल वाहिनी प्रासेना (गार्ड्स)	30 अगस्त 2006
10182135	टीजे-5468	--वही--	राजकुमार पान्डे	111 पैदल वाहिनी प्रासेना (कुमाऊँ)	--वही--
10150000	टीजे-5469	--वही--	गुरूभ उमाजीविष्णु	109 पैदल वाहिनी प्रासेना (मराठ लाई)	--वही--
10388905	टीजे-5470	--वही--	अशोक कुमार पटेल	151 पैदल वाहिनी प्रासेना (जाट)	--वही--
10405221	टीजे-5471	--वही--	अनिल कुमार	151 पैदल वाहिनी प्रासेना (जाट)	--वही--
10274173	टीजे-5472	--वही--	विष्णु प्रताप सिंह	121 पैदल वाहिनी प्रासेना (गढ़वाल राईफल)	07 सितम्बर 2006
10274251	टीजे-5473	--वही--	रामनिवास यादव	--वही--	--वही--
12687682	टीजे-5474	--वही--	ए ए मानवार सिंह	जी एच प्रासेना जयपुर	11 सितम्बर 2006
10302782	टीजे-5475	--वही--	मोहन लाल	160 पैदल वाहिनी प्रासेना (जेक राईफल)	15 सितम्बर 2006
10420837	टीजे-5476	--वही--	पेगी पाडुंग राया	115 पैदल वाहिनी प्रासेना (महार)	15 सितम्बर 2006
10466678	टीजे-5457	--वही--	बलवान सिंह	102 पैदल वाहिनी प्रासेना (पंजाब)	25 जुलाई 2006
10119367	टीजे-5458	--वही--	अतरनाजीर कासिम	101 पैदल वाहिनी प्रासेना (मराठ लाई)	31 जुलाई 2006
10149947	टीजे-5459	--वही--	सिध संजय यसवंत	109 पैदल वाहिनी प्रासेना (मराठ लाई)	06 अगस्त 2006
10244982	टीजे-5460	--वही--	ए. ईनगोचा सिंह	119 पैदल वाहिनी प्रासेना (असम)	17 अगस्त 2006
10245088	टीजे-5461	--वही--	सुखदेव बरदोलीई	--वही--	--वही--
10329087	टीजे-5462	--वही--	एम मधु	125 पैदल वाहिनी प्रासेना (गार्ड्स)	23 मई 2006
10329106	टीजे-5463	--वही--	पी गोवर्धन रेड्डी	--वही--	--वही--
10302777	टीजे-5464	--वही--	सुरेन्द्र सिंह	123 पैदल वाहिनी प्रासेना (ग्रेनेडियर्स)	24 अगस्त 2006
10302798	टीजे-5465	--वही--	रघुनाथ साही	--वही--	--वही--
12684556	टीजे-5466	--वही--	एन ए एस के सिंह	जी एच प्रासेना (इलाहाबाद)	28 अगस्त 2006
10197640	टीजे-5446	--वही--	सुखारी राम	153 पैदल वाहिनी प्रासेना (डोगरा)	01 फरवरी 2003
10197817	टीजे-5447	--वही--	बलजीत राज	--वही--	--वही--
10260150	टीजे-5448	--वही--	जय राम शर्मा	154 पैदल वाहिनी प्रासेना (बिहार)	06 जुलाई 2006
10166318	टीजे-5449	--वही--	बी लुकस	110 पैदल वाहिनी प्रासेना (मद्रास)	18 जुलाई 2006
10260178	टीजे-5450	--वही--	संग्राम केसरी बेरलो	120 पैदल वाहिनी प्रासेना (बिहार)	--वही--
10227798	टीजे-5451	--वही--	राजेन्द्र प्रसाद	118 पैदल वाहिनी प्रासेना (ग्रेनेडियर्स)	18 जुलाई 2006
10314920	टीजे-5453	--वही--	तिलक राज	124 पैदल वाहिनी प्रासेना (सिख)	20 जुलाई 2006
10466565	टीजे-5454	--वही--	होशियार सिंह	102 पैदल वाहिनी प्रासेना (पंजाब)	25 जुलाई 2006
10467035	टीजे-5455	--वही--	जिले सिंह	--वही--	--वही--
10466696	टीजे-5456	--वही--	हरनाम सिंह	--वही--	--वही--
10374206	टीजे-5436	--वही--	प्रेम कुमार तंमग	107 पैदल वाहिनी प्रासेना (ग्यारह जीआर)	18 जून 2006
10315111	टीजे-5437	--वही--	प्रदीप कुमार	152 पैदल वाहिनी प्रासेना (सिख)	22 जून 2006
10314999	टीजे-5438	--वही--	चमनकिस	--वही--	--वही--
10315103	टीजे-5439	--वही--	राजेश्वर दत्त	--वही--	--वही--
10290616	टीजे-5440	--वही--	राजू के एन	122 पैदल वाहिनी प्रासेना (मद्रास)	23 जून 2006

1	2	3	4	5	6
10290871	टीजे-5441	हवलदार	अशोकन पी एन पी	122 पैदल वाहिनी प्रासेना (मद्रास)	23 जून 2006
10290982	टीजे-5442	--वही--	ब्रिजेश सी जे	--वही--	--वही--
10291039	टीजे-5443	--वही--	सुधीर कुमार एम पी	--वही--	--वही--
10314982	टीजे-5444	--वही--	भूपेन्द्र पाल	158 पैदल वाहिनी प्रासेना (सिख लाई)	30 जून 2006
10260296	टीजे-5445	--वही--	राजेश पसवान	--वही--	--वही--
10466616	टीजे-5417	--वही--	हेत राम	150 पैदल वाहिनी प्रासेना (पंजाब)	05 जून 2006
10135176	टीजे-5418	--वही--	अजित सिंह	--वही--	--वही--
10149813	टीजे-5419	--वही--	पटिल भारत पानदुरंग	109 पैदल वाहिनी प्रासेना (मराठा लाई)	07 जून 2006
10149910	टीजे-5420	--वही--	सूबेदार अकरम मारूत	--वही--	--वही--
10151011	टीजे-5421	--वही--	कुलकर्णी वीथाल नारायण	--वही--	--वही--
10149915	टीजे-5422	--वही--	देशी शिवाजी राजा राम	--वही--	--वही--
10149930	टीजे-5423	--वही--	जगतप नामदेव वालू	--वही--	--वही--
10302828	टीजे-5424	--वही--	अशोक सिंह	123 पैदल वाहिनी	--वही--
10374242	टीजे-5434	--वही--	करका बहादुर तंमग	107 पैदल वाहिनी प्रासेना (ग्यारह जीआर)	18 जून 2006
10374202	टीजे-5435	--वही--	बसत राय	--वही--	--वही--
10315159	टीजे-5405	--वही--	पटाप चन्द्र	152 पैदल वाहिनी प्रासेना (सिख)	15 मई 2006
12383377	टीजे-5408	--वही--	पी रामाना	1105 रेलवे इंजी. रेजि. (प्रा. सेना)	22 मई 2006
12384835	टीजे-5409	--वही--	वी विजय कुमार	--वही--	--वही--
10260305	टीजे-5410	--वही--	पुरेन्द्र साहू	120 पैदल वाहिनी प्रासेना (बिहार)	--वही--
10361935	टीजे-5411	--वही--	देश राज	126 पैदल वाहिनी प्रासेना (जेक राईफल)	01 जून 2006
10315035	टीजे-5412	--वही--	सुनील कुमार शर्मा	152 पैदल वाहिनी प्रासेना (सिख)	29 मई 2006
10315042	टीजे-5413	--वही--	राजवीर सिंह	--वही--	--वही--
10182062	टीजे-5414	--वही--	दलजीत सिंह	111 पैदल वाहिनी प्रासेना (कुमाऊँ)	30 मई 2006
10245022	टीजे-5415	--वही--	मनोज हलदर	119 पैदल वाहिनी प्रासेना (असम)	02 जून 2006
10245035	टीजे-5416	--वही--	विधु महन्ता	--वही--	--वही--
10314767	टीजे-5394	--वही--	श्यामबाबू यादव	157 पैदल वाहिनी प्रासेना (सिख)	13 अप्रैल 2006
10405426	टीजे-5395	--वही--	राजदीपक	114 पैदल वाहिनी प्रासेना (जाट)	24 अप्रैल 2006
10315021	टीजे-5397	--वही--	सत्यवीर सिंह यादव	152 पैदल वाहिनी प्रासेना (सिख)	02 मई 2006
10315036	टीजे-5398	--वही--	रामकिशन यादव	--वही--	--वही--
10315064	टीजे-5399	--वही--	इबेने अली	--वही--	--वही--
10452438	टीजे-5400	--वही--	कनिका राज ए	117 पैदल वाहिनी प्रासेना (गार्ड)	10 मई 2006
10361726	टीजे-5401	--वही--	राम पोल	126 पैदल वाहिनी प्रासेना (जेक राईफल)	--वही--
10361797	टीजे-5402	--वही--	देवी सिंह	--वही--	--वही--
10361928	टीजे-5403	--वही--	सुरेन्द्र कुमार	--वही--	--वही--
10315093	टीजे-5404	--वही--	चमन प्रकाश	152 पैदल वाहिनी प्रासेना (सिख)	15 मई 2006

1	2	3	4	5	6
12383325	टीजे-5384	हवलदार	के. प्रार्थसारथी	1105 रेलवे इंजी. रेजी. (प्रा. सेना)	24 मार्च 2006
12390812	टीजे-5385	--वही--	आर विमलानाथन	--वही--	--वही--
12383348	टीजे-5386	--वही--	नारसंगा प्रसाद	--वही--	--वही--
12384787	टीजे-5387	--वही--	ए जी वेंकटेशन	--वही--	--वही--
12390813	टीजे-5388	--वही--	एस. सुभाष	--वही--	--वही--
10244908	टीजे-5389	--वही--	धनीराम वासुमतारी	119 पैदल वाहिनी प्रासेना (असम)	28 मार्च 2006
10244965	टीजे-5390	--वही--	विष्णु राम नाथ	--वही--	--वही--
10244981	टीजे-5391	--वही--	कैलाश पटिजीरी	--वही--	--वही--
10361832	टीजे-5392	--वही--	जसवीर सिंह	126 पैदल वाहिनी प्रासेना (जैक राईफल)	--वही--
10290577	टीजे-5393	--वही--	राधाकिशनन ईक	122 पैदल वाहिनी प्रासेना (मद्रास)	10 अप्रैल 2006
12383303	टीजे-5374	--वही--	एम सुरेन्द्र	1105 रेलवे इंजी. रेजी. (प्रा. सेना)	24 मार्च 2006
12383401	टीजे-5375	--वही--	डी. बनसले	--वही--	--वही--
12384745	टीजे-5376	--वही--	जे. रवि नायडू	--वही--	--वही--
12383296	टीजे-5377	--वही--	टी वी के एम चालापति राव	--वही--	--वही--
12390920	टीजे-5378	--वही--	टी प्रभूचरण	--वही--	--वही--
12390866	टीजे-5379	--वही--	हरपाल सिंह	--वही--	--वही--
12384908	टीजे-5380	--वही--	मो. नासीर	--वही--	--वही--
12384754	टीजे-5381	--वही--	एस. दीवादास	--वही--	--वही--
12384841	टीजे-5382	--वही--	वी प्रसाद	--वही--	--वही--
12384756	टीजे-5383	--वही--	एस. ए. हमीद	--वही--	--वही--
10314813	टीजे-5362	--वही--	सुखपाल सिंह	124 पैदल वाहिनी प्रासेना (सिख)	31 जनवरी 2006
10303725	टीजे-5364	--वही--	मान सिंह	123 पैदल वाहिनी प्रासेना (ग्रेनेडियर्स)	15 फरवरी 2006
10302739	टीजे-5365	--वही--	प्रीतम सिंह	--वही--	--वही--
10197847	टीजे-5366	--वही--	किशन सिंह राणा	159 पैदल वाहिनी प्रासेना (डोगरा)	17 फरवरी 2006
10374014	टीजे-5367	--वही--	गणेश राय	107 पैदल वाहिनी प्रासेना (11 जीआर)	27 फरवरी 2006
10314862	टीजे-5368	--वही--	सतीश कुमार	124 पैदल वाहिनी प्रासेना (सिख)	28 फरवरी 2006
10437023	टीजे-5369	--वही--	वीजू अगस्थी	116 पैदल वाहिनी प्रासेना (पैरा)	28 फरवरी 2006
10437074	टीजे-5370	--वही--	नरेन्द्र सिंह	--वही--	--वही--
10466609	टीजे-5371	--वही--	आजाद सिंह	150 पैदल वाहिनी प्रासेना (पंजाब)	--वही--
12384782	टीजे-5373	--वही--	वी एस वारा प्रसाद	1105 रेलवे इंजी. रेजि. (प्रा. सेना)	24 मार्च 2006

4-104 6/107

एन. कलियप्पन  
अवर सचिव

(थल सेना विभाग)	60127	कुमार गौरव, आर्टी, 09 दिसम्बर 2006
सं. 302, दिनांक 29 मई 2007--थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--	60150	अमित सामन्ता, आर्टी, 09 दिसम्बर 2006
नियमित सेना	60202	प्राचीश तिवारी, आर्टी, 09 दिसम्बर 2006
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर	60273	विक्रम विनायक केलकर, आर्टी, 09 दिसम्बर 2006
(अल्पकालीन कमीशन)	60312	गौरी शंकर ए पिल्ले, इन्ट, 09 दिसम्बर 2006
फ्लाईट लैफ्ट से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर	60319	राजेश मेहता, इन्फैन्ट्री, 09 दिसम्बर 2006
डी एस-12065ए, (ए एफ-26906एफ), शिल्पा श्रीवत्सा, 19 अक्टूबर 2006	60324	चेन्डिल कुमार जे, मैक इन्फैन्ट्री, 09 दिसम्बर 2006
	60347	अमित रंजन, एओसी, 09 दिसम्बर 2006
	60352	कमलेश सिंह राठौर, आर्टी, 09 दिसम्बर 2006
	60479	के श्रीकान्त, आर्टी, 09 दिसम्बर 2006
डी.के. तनेजा	62442	गिरिश एस महिन्द्राकर, ईएमई, 11 जून 2006
मेजर जनरल	62947	अभिजित कोलास्थाने, ईएमई, 10 दिसम्बर 2006
एडीजीडीएस	64838	किशोर श्रीवास्तव, आर्टी, 04 नवम्बर 2006
-----	64904	प्रभात शर्मा, एएडी, 04 नवम्बर 2006
सं. 303, दिनांक 29 मई 2007--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:--		शिव राम बैरवा उप निदेशक एमएस 8-सी
नियमित सेना		-----
स्थायी कमिशन		सेना सचिव शाखा
(सेना चिकित्सा कोर)		सं. 305, दिनांक 29 मई 2007--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:--
ब्रिगेडियर (समकक्ष) से मेजर जनरल (समकक्ष) पद पर		नियमित सेना
जी राजागोपाल (एम आर-02962एच), 01 जनवरी 2007		स्थायी कमीशन
कर्नल (समकक्ष) से ब्रिगेडियर (समकक्ष) पद पर		लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक में
एम एन श्रीराम (एम आर-4301एफ), 01 जनवरी 2007 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले काल्पनिक पदोन्नति 01 दिसम्बर 2006		नाम, रैंक, आई सी, आर्म--लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
राजेश कामरान		मेजर जनरल राजिन्दर सिंह, एस एम, वी एस एम (आई सी-23928), कुभाऊ, 26 सितम्बर 2006
ब्रिगेडियर		एन.के. फूकन एमएस/एमएस (एक्स)
उप महानिदेशक स.से.चि.से (कार्मिक)		-----
-----		वायु शाखा
सं. 304, दिनांक 28 मई 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों की सहर्ष पदोन्नति करते हैं:--		सं. 306, दिनांक 25 मई 2007--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं:--
नियमित सेना		भारतीय वायु सेना
स्थायी कमीशन		उड़ान शाखा
कप्तान से मेजर		एयर कामोडोर के मूल रैंक में
आई सी नं. नाम, आर्म, इस तारीख से मेजर		एम बहादुर (14665) उ.(पा.), 23 नवम्बर 2006/10 जुलाई 2006 (केवल वरीयता के आधार पर)
50240 सैलेश टर्डन, एएससी, 16 दिसम्बर 2004		
54173 राजेश विज, एओसी, 16 दिसम्बर 2004		
54580 प्रशान्त कुमार त्रिपाठी, इंजीनियर्स, 12 जून 2004 (लेकिन वेतन एव भत्ते 01 नवम्बर 04 से देय)		
58474 सन्तोष कुमार, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004		
59850 चन्द्र मौली सिंह, एएडी, 10 जून 2006		

आर जी बर्ली (14667) उ.(पा.), 17 अक्टूबर 2006/10 जुलाई 2006  
(केवल वरीयता के आधार पर)

(इनका नाम एयर कामोडोर ए अनेजा (14668), उ.(पा.) के ऊपर  
आयेगा)

एम कुमार (14674) उ.(पा.), 01 नवम्बर 2006

(इनका नाम एयर कामोडोर एस सुकुमार (14672), उ.(पा.) के नीचे  
आयेगा)

टी के नायर (14680) उ.(पा.), 01 नवम्बर 2006

एस एस सोमन (14681) उ.(पा.), 20 नवम्बर 2006

टी के चटर्जी (14687) उ.(पा.), 11 दिसम्बर 2006

ए पी गरुड़ (14692) उ.(पा.), 18 दिसम्बर 2006

पी एम कट्टी (15005) उ.(पा.), 01 जनवरी 2007

पी पी रेड्डी (15008) उ.(पा.), 05 जनवरी 2007

पी एन आर गोविन्द (15019) उ.(पा.), 07 फरवरी 2007/01 फरवरी  
2007

(केवल वरीयता के आधार पर)

ए सी भराली (15049) उ.(पा.), 01 फरवरी 2007

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

एयर कामोडोर के मूल रैंक में

पी के श्रीवास्तव (14160), वै. ई.(वै.), 01 सितम्बर 2006

(इनका नाम एयर कामोडोर एम एस रविन्द्र (14139) वै. ई.(वै.)  
और एन कुमार (14312) वै. ई.(वै.) के बीच में आयेगा)

ए के सिन्हा (14336), वै. ई.(वै.), 03 अक्टूबर 2006

आर मितल (14167), वै. ई.(वै.), 03 अक्टूबर 2006

(इनका नाम एयर कामोडोर वी सेहगल (14322) वै. ई.(वै.) के ऊपर  
आयेगा)

ए सिंघल (14615), वै. ई.(वै.), 20 नवम्बर 2006

(इनका नाम एयर कामोडोर वी सेहगल (14322) वै. ई.(वै.) के नीचे  
आयेगा)

वी के नारंग (14326), वै. ई.(वै.), 01 दिसम्बर 2006

एम एस कृष्णन (14584), वै. ई.(वै.), 01 दिसम्बर 2006

एस के गुप्ता (14595), वै. ई.(वै.), 02 जनवरी 2007

जे चन्द्रा (14613), वै. ई.(वै.), 02 जनवरी 2007

के एन कुमार (14627), वै. ई.(यां.), 01 फरवरी 2007

ए के सिंह (14616), वै. ई.(वै.), 01 फरवरी 2007

एम आर सिंह (14768), वै. ई.(यां.), 01 फरवरी 2007

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

पी चक्रवर्ती (15632) वै. ई.(वै.), 01 अगस्त 2006/09 जून 2005  
(नो. से.)

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन आई जे सिंह (15637) वै. ई.(यां) और  
एस पी यादव (15840) वै. ई.(यां) के बीच में आयेगा)

विंग कमांडर के मूल रैंक में

ई आर सथीसन (रिटायर्ड) (17292), वै. ई.(वै.), 01 दिसम्बर 2001

(इनका नाम विंग कमांडर पी के श्रीवास्तव (17283) वै. ई.(यां) और  
एस सक्सेना (17278) वै. ई.(यां) के बीच में आयेगा)

वी जे एम बेराक्या (17298), वै. ई.(वै.), 09 दिसम्बर 2001

(इनका नाम विंग कमांडर ए शुक्ला (17276) वै. ई.(यां) और संजय  
कुमार (17275) वै. ई.(यां) के बीच में आयेगा)

आर सौन्दराराजन (17418), वै. ई.(वै.), 01 अप्रैल 2002

(इनका नाम विंग कमांडर आर तोमर (17425) वै. ई.(यां) और  
एस किशोर (17429) वै. ई.(यां) के बीच में आयेगा)

एम आर वगार (16755), वै. ई.(यां.), 01 जुलाई 2003

संभारिकी शाखा

विंग कमांडर के मूल रैंक में

आर के रक्षा (16444), संभा., 01 अगस्त 2002

प्रशासन शाखा

विंग कमांडर के मूल रैंक में

बी सिंह (16260), प्रशा., 01 अक्टूबर 2002

(इनका नाम विंग कमांडर एस के दास (16108) प्रशा और आर के  
पांडे (16643) प्रशा के बीच में आयेगा)

उड़ान शाखा

विंग कमांडर के मूल रैंक में

बी जी कार्वे (17877), उ. पा., 07 जून 2004/13 मई 2002 (नो. से)

(इनका नाम विंग कमांडर यू राखरा (18071) उ. पा. के ऊपर आयेगा)

जे एस राना (18132), उ. पा., 05 मई 2003

आर जी के कपूर (18253), उ. पा., 05 मई 2003

जे एस जोहर (18254), उ. पा., 05 मई 2003

वी एस चौहान (18255), उ. पा., 05 मई 2003

के के खेरा (18256), उ. पा., 05 मई 2003

एम आर आनन्द (18257), उ. पा., 05 मई 2003

ए राठोर (18258), उ. पा., 05 मई 2003

एस के मोहलाह (18259), उ. पा., 05 मई 2003

एस पी सिंह (18260), उ. पा., 05 मई 2003	डी के बेरी (रिटायर्ड) (18307), उ. पा., 05 मई 2003
जी के मालविया (18261), उ. पा., 08 अगस्त 2003/05 मई 2003 (नो.से.)	एस चौहान (18550), उ. पा., 05 मई 2003
एम एस आर रेड्डी (रिटायर्ड) (18262), उ. पा., 05 मई 2003	आर एस मक्कर (18551), उ. पा., 05 मई 2003
पी दुआ (18266), उ. पा., 05 मई 2003	आर भारद्वाज (18552), उ. पा., 05 मई 2003
ए श्रीगन्नावर (18267), उ. पा., 05 मई 2003	ए सभरवाल (18553), उ. पा., 05 मई 2003
ए भारद्वाज (18268), उ. पा., 05 मई 2003	एम खन्ना (18554), उ. पा., 05 मई 2003
एन तिवारी (18270), उ. पा., 25 जून 2003/05 मई 2003 (नो.से.)	ए सी चोपड़ा (18555), उ. पा., 05 मई 2003
ए चौधरी (18271), उ. पा., 05 मई 2003	आर के चौहान (18556), उ. पा., 05 मई 2003
एस बी सरकार (18272), उ. पा., 05 मई 2003	एन कपूर (18557), उ. पा., 05 मई 2003
एस राय (18273), उ. पा., 05 मई 2003	ए दिक्षीत (18558), उ. पा., 05 मई 2003
एस गेरा (18275), उ. पा., 05 मई 2003	सी के भरारा (18560), उ. पा., 05 मई 2003
ए के सेन (18278), उ. पा., 16 मई 2003/05 मई 2003 (नो.से.)	बी बालाचंद्रन (18561), उ. पा., 05 मई 2003
एस बनर्जी (18279), उ. पा., 16 मई 2003/05 मई 2003 (नो.से.)	एम गुप्ता (18562), उ. पा., 08 मई 2003/05 मई 2003 (नो.से.)
ए जोशी (18280), उ. पा., 05 मई 2003	एस सिंह (18563), उ. पा., 05 मई 2003
बी.वी. उपाध्याय (18281), उ. पा., 08 जुलाई 04/05 मई 2003 (नो.से.)	वी सिंह (18564), उ. पा., 16 जून 2003/05 मई 2003 (नो.से.)
सी एच एन कुमार (18283), उ. पा., 05 मई 2003	आर खन्ना (रिटायर्ड) (18565), उ. पा., 05 मई 2003
ए के सिंह (18284), उ. पा., 05 मई 2003	एन के दहिया (18567), उ. पा., 05 मई 2003
आर सी मोहिले (18287), उ. पा., 05 मई 2003	डी वी वानी (18568), उ. पा., 05 मई 2003
जी सी मिश्रा (18288), उ. पा., 05 मई 2003	एस श्रीवास्तवा (18569), उ. पा., 05 मई 2003
बी मनीकंटन (18291), उ. पा., 05 मई 2003	एम मोहन (18570), उ. पा., 05 मई 2003
के श्रीनिवासुलु (18293), उ. पा., 05 मई 2003	आर आर त्यागी (18571), उ. पा., 05 मई 2003
ए के शर्मा (18294), उ. पा., 05 मई 2003	जे सिंह (18572), उ. पा., 28 जुलाई 2003/05 मई 2003 (नो.से.)
एस धनकर (18295), उ. पा., 27 जनवरी 2004/05 मई 2003 (नो.से.)	के के मांगलिक (18574), उ. पा., 05 मई 2003
एस के इंदोरिया (18296), उ. पा., 05 मई 2003	जे मिश्रा (18575), उ. पा., 05 मई 2003
बी एस यादव (रिटायर्ड) (18297), उ. पा., 05 मई 2003	सी एस मलिका (18576), उ. पा., 05 मई 2003
एन एस वर्मा (रिटायर्ड) (18298), उ. पा., 19 मई 2003/05 मई 2003 (नो.से.)	के आर ए राव (18577), उ. पा., 05 मई 2003
एस सी डिसूजा (18299), उ. पा., 05 मई 2003	ए के शर्मा (18578), उ. पा., 30 जून 2003/05 मई 2003 (नो.से.)
बी साजु (18300), उ. पा., 05 मई 2003	वी भलोत्रा (18579), उ. पा., 05 मई 2003
एम के पांडे (18301), उ. पा., 05 मई 2003	डी सिंह (18580), उ. पा., 05 मई 2003
जेड ए गफूर (18304), उ. पा., 05 मई 2003	पी उपाध्याय (18581), उ. पा., 05 मई 2003
वी बी सेठी (18305), उ. पा., 05 मई 2003	यू कुमार (18582), उ. पा., 05 मई 2003
वी के सिंह (18306), उ. पा., 05 मई 2003	एस संजय (18584), उ. पा., 05 मई 2003
	के जे एस डिहोट (18585), उ. पा., 05 मई 2003
	एम रानाडे (18586), उ. पा., 05 मई 2003



आर मुरली (18587), उ. पा., 10 नवम्बर 2003/05 मई 2003  
(नो.से.)

वी ए कुलकर्णी (18589), उ. पा., 05 मई 2003

ए एस कुलकर्णी (18590), उ. पा., 05 मई 2003

एस टी जार्ज (18591), उ. पा., 05 मई 2003

जी सिंह (18592), उ. पा., 05 मई 2003

टी एस राव (रिटायर्ड) (18593), उ. पा., 05 मई 2003

ए एस पटानिया (18594), उ. पा., 05 मई 2003

एल कुमार (18596), उ. पा., 05 मई 2003

पी के सिंह (18597), उ. पा., 05 मई 2003

एस कौरा (18598), उ. पा., 05 मई 2003

ए सिंह (18599), उ. पा., 05 मई 2003

के आर विसवेसवरण (18690), उ. पा., 05 मई 2003

बी अहलुवालिया (18691), उ. पा., 05 मई 2003

एम के सिहाग (18692), उ. पा., 05 मई 2003

जी एस पडडा (18303), उ. पा., 11 मई 2004

ए सिंह (18588), उ. पा., 11 मई 2004

एस के द्विवेदी (18693), उ. पा., 11 मई 2004

ए के भारती (18781), उ. पा., 11 मई 2004

एस अग्रवाल (18782), उ. पा., 11 मई 2004

ए आर गोरे (18783), उ. पा., 11 मई 2004

आर के ओबेराय (18784), उ. पा., 11 मई 2004

ए लाल (18785), उ. पा., 11 मई 2004

जे अन्टेनी (18786), उ. पा., 11 मई 2004

एस श्रीनिवास (18787), उ. पा., 11 मई 2004

ए नाटियाल (18789), उ. पा., 11 मई 2004

ए कुमार (18790), उ. पा., 11 मई 2004

आर एन राव (18792), उ. पा., 11 मई 2004

ए शुक्ला (18793), उ. पा., 11 मई 2004

ए अहमद (18794), उ. पा., 11 मई 2004

बी एम त्यागी (18795), उ. पा., 11 मई 2004

पी कुमार (18796), उ. पा., 11 मई 2004

आर सिन्हा (18797), उ. पा., 11 मई 2004

आर वैद्य (18798), उ. पा., 11 मई 2004

एन कानिठकर (18799), उ. पा., 11 मई 2004

हैदर अली (18800), उ. पा., 11 मई 2004

ए वोहरा (18801), उ. पा., 17 मई 2004/11 मई 2004 (नो.से.)

ओ जे एस माल्ही (18803), उ. पा., 11 मई 2004

के अल्लेन (18805), उ. पा., 30 जुलाई 2004/11 मई 2004  
(नो.से.)

टी सिंह (18806), उ. पा., 11 मई 2004

आर दिनेशन (18807), उ. पा., 11 मई 2004

डी के चुघहा (18808), उ. पा., 11 मई 2004

पी के प्रसाद (18809), उ. पा., 11 मई 2004

आर राजन (18810), उ. पा., 11 मई 2004

ए शर्मा (18811), उ. पा., 11 मई 2004

सी के कुमार (18812), उ. पा., 11 मई 2004

वी देदगांवकर (18813), उ. पा., 11 मई 2004

आर जी रियुबेन (18814), उ. पा., 11 मई 2004

एस सी मिश्रा (18815), उ. पा., 11 मई 2004

एस श्रीवास्तवा (18816), उ. पा., 11 मई 2004

जे एम मन्थेना (18817), उ. पा., 11 मई 2004

टी एस चौहान (18821), उ. पा., 11 मई 2004

के एस सुरेश (18822), उ. पा., 11 मई 2004

एम मराठे (18824), उ. पा., 08 जून 2004/11 मई 2004 (नो.से.)

एस के विधाते (18825), उ. पा., 11 मई 2004

एस चौधरी (18826), उ. पा., 11 मई 2004

एस गुप्ता (18827), उ. पा., 11 मई 2004

टी के वर्गीज (18829), उ. पा., 11 मई 2004

बी जोहरी (18831), उ. पा., 11 मई 2004

एस बी टोडकर (18833), उ. पा., 11 मई 2004

एस दास (18836), उ. पा., 11 मई 2004

पी के भारद्वाज (18837), उ. पा., 11 मई 2004

एस के भटनागर (18838), उ. पा., 11 मई 2004

एस भट्टाचार्यजी (18840), उ. पा., 11 मई 2004

के पी जी सिंह (18842), उ. पा., 11 मई 2004

आर सिंह (18844), उ. पा., 11 मई 2004

ए के त्रिपाठी (18845), उ. पा., 11 मई 2004

एम एस अवाना (19153), उ. पा., 11 मई 2004

जी के पांडा (19154), उ. पा., 11 मई 2004

- ए सेन (19155), उ. पा., 11 मई 2004
- बी साहनी (19156), उ. पा., 11 मई 2004
- जे एस धामून (19157), उ. पा., 11 मई 2004
- ए एस डांगे (19161), उ. पा., 11 मई 2004
- पी के वोहरा (19162), उ. पा., 11 मई 2004
- एस चन्द्रा (19164), उ. पा., 11 मई 2004
- एस सप्र (19165), उ. पा., 19 जुलाई 2004/11 मई 2004 (नो.से.)
- आर गोयल (19166), उ. पा., 11 मई 2004
- आर चावला (19168), उ. पा., 11 मई 2004
- आर पुरोहित (19170), उ. पा., 11 मई 2004
- जी बालाजी (19171), उ. पा., 11 मई 2004
- एम के श्रीवास्तवा (19173), उ. पा., 11 मई 2004
- एच एस बसरा (19174), उ. पा., 11 मई 2004
- एस मिश्रा (19175), उ. पा., 11 मई 2004
- एस पुरी (19176), उ. पा., 11 मई 2004
- एस सी गुलाटी (19179), उ. पा., 11 मई 2004
- एच बेन्स (19180), उ. पा., 11 मई 2004
- एच सूद (19181), उ. पा., 11 मई 2004
- पी महेशवर (19183), उ. पा., 11 मई 2004
- ए कपूर (19185), उ. पा., 11 मई 2004
- पी शर्मा (19186), उ. पा., 11 मई 2004
- आर महाजन (19187), उ. पा., 14 अगस्त 2004/11 मई 2004 (नो.से.)
- एच आर पी सर्मा (19188), उ. पा., 11 मई 2004
- एस शर्मा (19189), उ. पा., 11 मई 2004
- वाई सिंह (19190), उ. पा., 11 मई 2004
- ए मुखर्जी (19191), उ. पा., 11 मई 2004
- ए के मित्तल (19192), उ. पा., 19 जुलाई 2004/11 मई 2004 (नो.से.)
- एम एस देशपांडे (19193), उ. पा., 11 मई 2004
- वी वी एन श्रीकान्त (19195), उ. पा., 11 मई 2004
- एस मिश्रा (19196), उ. पा., 11 मई 2004
- बी रमेश (19197), उ. पा., 11 मई 2004
- जेड अहमद (19198), उ. पा., 11 मई 2004
- आर चन्द्रा (19200), उ. पा., 11 मई 2004
- एस के वी वछनी (19203), उ. पा., 11 मई 2004
- एम अमरेन्द्र (19204), उ. पा., 11 मई 2004
- एम मिश्रा (19205), उ. पा., 11 मई 2004
- आर के चौधरी (19206), उ. पा., 11 मई 2004
- एस चौधरी (19207), उ. पा., 11 मई 2004
- आई भट्टाचार्या (19208), उ. पा., 11 मई 2004
- एस नायर (19209), उ. पा., 11 मई 2004
- ए के पुन्ताम्बेकर (19210), उ. पा., 11 मई 2004
- एस अन्टोनी (19211), उ. पा., 11 मई 2004
- एम केदार (19212), उ. पा., 11 मई 2004
- पी आर जयराम (19214), उ. पा., 11 मई 2004
- एन के पुरनदारे (19215), उ. पा., 11 मई 2004
- ए वी कुलकर्णी (19216), उ. पा., 11 मई 2004
- के पी एस विर्क (19218), उ. पा., 11 मई 2004
- ए के गुप्ता (19316), उ. पा., 11 मई 2004
- ई के प्रसाद (18600), उ. पा., 11 मई 2004
- एस जोस (18839), उ.पा., 01 सितम्बर 2006/11 मई 2004 (नो.से.)
- एन भल्ला (19160), उ. पा., 22 मार्च 2006/11 मई 2004 (नो.से.)
- ए वशिष्ठ (17332), उ. पा., 07 जून 2001/15 मई 2000 (नो.से.) (इनका नाम विंग कमांडर ए अरोड़ा (17333), उ. पा. के ऊपर आयेगा)
- पी के शर्मा (17465), उ. पा., 14 मई 2001 (इनका नाम विंग कमांडर डी के पटनायक (17464), उ. पा. और एस आर रेड्डी (17466), उ. पा. के बीच में आयेगा)
- वी एस सावलकर (17468), उ. पा., 14 मई 2001 (इनका नाम विंग कमांडर ए के मिश्रा (17467), उ. पा. और टी वी कुलकर्णी (17469), उ. पा. के बीच में आयेगा)
- ए पी श्रीवास्तवा (17471), उ. पा., 10 फरवरी 2003/14 मई 2001(नोसे)
- (इनका नाम विंग कमांडर टी वी कुलकर्णी (17469), उ. पा. और एस के मित्तल (17472), उ. पा. के बीच में आयेगा)
- ए वी मोकशी (17473), उ. पा., 14 मई 2001 (इनका नाम विंग कमांडर एस के मित्तल (17472), उ. पा. और ए पी सिंह (17475), उ. पा. के बीच में आयेगा)
- एस कृष्णामूर्ति (रिटायर्ड) (17707), उ. पा., 14 मई 2001 (इनका नाम विंग कमांडर पी ई पतंगे (17706), उ. पा. और एन बी साबे (17708), उ. पा. के बीच में आयेगा)
- जी ए पी बाबु (17714), उ. पा., 14 मई 2001

(इनका नाम विंग कमांडर एस कुमार (17713), उ. पा. और एम सी मिश्रा (17715), उ. पा. के बीच में आयेगा)

एन पी रंजीत (17727), उ. पा., 14 मई 2001

(इनका नाम विंग कमांडर बी चन्द्रशेखर (17726), उ. पा. और बी रमेश (17728), उ. पा. के बीच में आयेगा)

एस अरोड़ा (17729), उ. पा., 14 मई 2001

(इनका नाम विंग कमांडर बी रमेश (17728), उ. पा. के नीचे आयेगा)

वी एस सावलकर (17468), उ. पा., 14 मई 2001

#### शिक्षा शाखा

विंग कमांडर के मूल रैंक में:--

बी अब्राहम (रियार्ड) (17396) शिक्षा, 20 मई 2002

कुलदीप सिंह (रियार्ड) (17397) शिक्षा, 20 मई 2002

ए शर्मा (17398) शिक्षा, 20 मई 2002

एस सिंह (17399) शिक्षा, 16 जुलाई 2002/20 मई 2002 (नो.से.)

वी के वर्मा (17401) शिक्षा, 20 मई 2002

के.वी. शंकर

संयुक्त निदेशक कार्मिक (अधिकारी)-2 (बी)

-----

सं. 307, दिनांक 25 मई 2007--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं:--

#### भारतीय वायु सेना

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (टाइम स्केल) के मूल रैंक में

#### प्रशासनिक शाखा

आर सी विद्यार्थी (15242) 01 जुलाई 2006 से प्रभावी।

#### उड़ान (नेवीगेटर) शाखा

ए के वोहरा (16092) 14 जून 2006 से प्रभावी।

#### उड़ान (पायलट) शाखा

एन आर म्हात्रे (16078), के के सिंह (16085) 15 जून 2006 से प्रभावी।

जी के सचदेव (16209), टी कुरियन (16220) 13 दिसम्बर 2006 से प्रभावी।

#### उड़ान (नेवीगेटर) शाखा

एल के पांडेय (16254), एम कलमाकर (16252) 13 दिसम्बर 2006 से प्रभावी।

#### प्रशासनिक शाखा

बी सिंह (16260), एस मजूमदार (16264), ए बोस (16267), डी के सिंहा (16271) 13 दिसम्बर 2006 से प्रभावी।

#### शिक्षा शाखा

एच पी शर्मा (16276), वी एस राय (16284), एल शर्मा (16285), 13 दिसम्बर 2006 से प्रभावी।

#### उड़ान (पायलट) शाखा

के भेसनिया (16246), 02 फरवरी 2007 से प्रभावी।

#### ए इ (एम) शाखा

डी चंद्रा (16747), 07 फरवरी 2007 से प्रभावी।

#### स्क्वाड्रन लीडर की मूल विंग कमांडर में

एस के खरे (16261), दिनांक 16 दिसम्बर 2004 से।

#### ए इ एम शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में

वाई राजत (22888), और आर एस जयंति (22889), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

#### ए इ एल शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में

आर डी शर्मा (22890), ए एस मुखर्जी (22891), और जे एस मलिक (22892), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

#### उड़ान शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में

मणीष मणि त्रिपाठी (26304), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

एन विजय कुमार

विंग कमांडर

जे डी पी ओ. 3 (डी)

-----

सं. 308, दिनांक 24 मई 2007--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्री धन सिंह की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 31 मई, 2007 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

एस.के. देव

अवर सचिव

-----

#### अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 309, दिनांक 23 मई 2007--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने अर्थात् 60 वर्ष होने पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में कार्यरत निम्न अधिकारी उनके नामों के सामने लिखी तिथियों से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं:--

(क) श्री भवानी शंकर नंदा, संयु. निदे. 31.03.07 (01.04.07 से पेंशन स्थापना को स्थानांतरित)

(ख) श्री देव राज, अनुभाग अधिकारी 31.03.07 (01.04.07 से पेंशन स्थापना को स्थानांतरित)

शंकर सिंह

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा.)

सेना शाखा	ब्रांच जी एस
सं. 310, दिनांक 28 मई 2007:--	शुद्धि पत्र
शुद्धि पत्र	
भारत के राजपत्र संख्या 11 में दिनांक 01 जनवरी 2005 को शीर्षक नियमित सेना स्थायी कमीशन एवं उप शीर्षक कप्तान से मेजर के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--	सं. 311, दिनांक 24 मई 2007--भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के द्वारा दिनांक को शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित की गई, जी एस ब्रांच को एतद् द्वारा निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाता है:--
के बदले : 54682 जसवीर सिंह, इन्फैन्ट्री 54733 मनोज कुमार सिरोही एसी	के लिए:-- ले. कर्नल पृथ्वी सिंह राठौर टी ए-41752, इन्फैन्ट्री, 01 जुलाई 2005
--06 नवम्बर 2002	ले. कर्नल परद्युम्न कुमार मंगोत्रा टी ए-41825, इन्फैन्ट्री, 01 अगस्त 2005
54703 जी कुमार, एएससी	ले. कर्नल वी एम शर्मा टी ए-42172, इन्फैन्ट्री, 01 नवम्बर 2005
--06 नवम्बर 2002	ले. कर्नल पेटकर किशोर लक्ष्मण टी ए-41897, इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2006
(लेकिन वेतन एवं भत्ते 27 अक्टूबर 2003 से देय)	पढ़ें :-- ले. कर्नल पृथ्वी सिंह राठौर टी ए-41752, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
पढ़ा जाए :-- 54682 जसवीर सिंह, इन्फैन्ट्री 54733 मनोज कुमार सिरोही एसी	ले. कर्नल परद्युम्न कुमार मंगोत्रा टी ए-41825, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
--06 नवम्बर 2002	ले. कर्नल वी एम शर्मा टी ए-42172, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
(लेकिन वेतन एवं भत्ते 27 अक्टूबर 2003 से देय)	ले. कर्नल पेटकर किशोर लक्ष्मण टी ए-41897, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
54703 जी कुमार, एएससी	
--06 नवम्बर 2002	
शिव राम बैरवा उप निदेशक एम एस 8सी	एन कालियप्पन अवर सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 16th June 2007

No. 289 dated 23rd May 2007.—Consequent on his promotion to the Stenographer Grade 'A&B, (Merged) (Private Secretary) of CSSS vide Department of Personnel & Training O.M. No. 5/8/2006-CS. II, dated 1st March, 2007, the President is pleased to appoint Shri Rajender Prasad, Stenographer Grade 'C' of CSSS Cadre of Department of Food & Public Distribution, to the post of Stenographer Grade 'A&B' (Merged) of CSSS in the Ministry of Defence on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 30th March, 2007 till 30.6.2007 or till regular officer becomes available or until further orders, whichever is earlier subject to the following conditions:-

(i) The ad-hoc appointment shall not confer him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A&B' (Merged) of CSSS.

(ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

S. K. DEB  
Under Secy.

## (FINANCE DIVISION)

No. 290 dated 24th May 2007.—The President is pleased to appoint Shri T. Rambabu, IDAS (1996) as Deputy Financial Adviser in Ministry of Defence (Finance Division) with effect from the forenoon of 1st May, 2007 to 30th April, 2011 or until further orders whichever event takes place earlier.

The President is pleased to appoint Smt Praveen Lata Sehgal, of CSS as Assistant Financial Adviser (Under Secretary) in the Ministry of Defence (Finance Division) w.e.f. the forenoon of 29th March, 2007 till further orders.

RAMESH KUMAR  
Director (Fin/E)

## ARMY HEAD QUARTERS

## QMG BRANCH

No. 291 dated 24th May 2007.—The President is pleased to appoint the following Asstt of AFHQ Civil Services as Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the Pay Scale of Rs 6,500—10,500/- with effect 30 Apr 2004 (FN) till further order:-

- (a) Shri R.S. Nair  
(b) Shri T. Suresh Kumar

The President is pleased to appoint the following Asstt (Gp B Non Gazetted) of AFHQ Civil Services as Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the Pay Scale of Rs 6,500—10,500/- with effect from date mentioned against each:-

## Name wef

- (a) Shri Jitendra Hira 29 Jul 2005  
(b) Shri Rahul Bhardwaj 31 Mar 2006  
(c) Shri R.K. Singh 13 Jul 2006  
(d) Shri Ashish Sethi 29 Dec 2006

SHANKAR SINGH  
Dy Chief Administrative Officer (A)

## ARMY BRANCH

No. 292 dated 24th May 2007.—The President is pleased to make the following appointments:-

## TERRITORIAL ARMY

## TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

- Maj AS Shellee (TA-41762), Engr, 16 Dec 2004  
Maj RKN Parmar (TA-41766), Engr, 16 Dec 2004  
Maj BD Yadav (TA-41790), Engr, 16 Dec 2004  
Maj AS Bajwa (TA-41793), Engr, 16 Dec 2004  
Maj S Kumar (TA-41796), Engr, 16 Dec 2004  
Maj Priobhash Dey (TA-41803), Engr, 16 Dec 2004  
Maj HK Sayal (TA-41833), Engr, 16 Dec 2004  
Maj BPS Chauhan (TA-41842), Engr, 16 Dec 2004  
Maj PK Verma (TA-41843), Engr, 16 Dec 2004  
Maj RS Pandey (TA-41844), Engr, 16 Dec 2004  
Maj AK Sahay (TA-41848), Engr, 16 Dec 2004  
Maj R Kumar (TA-41863), Engr, 16 Dec 2004  
Maj SG Sharma (TA-41874), Engr, 16 Dec 2004  
Maj SK Singh (TA-41880), Engr, 16 Dec 2004  
Maj SS Garg (TA-41892), Engr, 16 Dec 2004  
Maj RL Jangid (TA-41893), Engr, 16 Dec 2004  
Maj ND Vikas (TA-41895), Engr, 16 Dec 2004

N. KALIAPPAN  
Under Secy.

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANISATION

No. 293 dated 28th May 2007.—The President is pleased to make the following appointments:-

The Undermentioned individual (S) to be temporary Scientist (S) 'C' (Group 'A') in the Defence Research & development Service on probation for a period of one year

with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 10,000-325-15,200/-.

Name	Estt/Lab	Date
Dr. (Ms.) Lalita Gupta	Lastec, Delhi	04.12.2003
Dr. Veerabuthiran S	Lastec, Delhi	16.08.2004
Dr. Harikrishnan M	INMAS, Delhi	05.08.2004
Dr. Indracanti Prema Kumar	INMAS, Delhi	17.08.2004
Dr. (Ms.) Mrinalini	DIPAS, Delhi	26.04.2005
Smt. S Geetha	DIPAS, Delhi	28.06.2004
Dr. Debmalya Roy	DMSRDE, Kanpur	10.08.2004
Dr. (Ms.) Vineeta Nigam	DMSRDE, Kanpur	02.07.2004
Shri Tapan Khilariwal	DEBEL, Bangalore	23.02.2004
Shri Ashutosh Kedar	LRDE, Bangalore	04.11.2003
Shri Updesh Sharma	PXE, Chandipur	15.09.2003
Shri E Varadarajan	SSPL, Delhi	27.08.2004
Dr. (Ms.) Sonajee Chopra	SSPL, Delhi	20.01.2005
Dr. (Smt.) Puspashree Mishra	SSPL, Delhi	15.04.2004
Dr. (Smt.) Rekha Choudhary	LASTEC, Delhi	07.02.2005
Shri G Venkatesan	CVRDE, Chennai	01.10.2003
Shri Deepak Gupta	DARE, Bangalore	19.07.2005
Dr. (Ms.) Lekshmi S	ADE, Bangalore	13.07.2005

The Undermentioned individual (s) to be temporary Scientist (s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research & Development Service on probation for a period of one year with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/-.

Name	Estt	Date of Appt
1	2	3
Shri Rayabarapu Sudhakar	ASL, Hyderabad	12.04.2004
Shri Gaddam Kamalakar	ASL, Hyderabad	12.04.2004
Shri Kalyan Chakravarty Vedula	ASL, Hyderabad	12.04.2004
Shri Pasupulety Suresh Babu	ASL, Hyderabad	12.04.2004
Shri Kalyan Krishna Lolla	ASL, Hyderabad	12.04.2004
Shri Bipin Kumar	ASL, Hyderabad	28.08.2003
Shri Annemalla Bhoopathi	ASL, Hyderabad	13.06.2002
Shri Mohammad Arif Khan	ASL, Hyderabad	06.03.2003
Ms. Hamsadhvani P.	ASL, Hyderabad	12.04.2004
Ms. Seena Parmar	ASL, Hyderabad	03.11.2003
Shri Balla Ramesh	ASL, Hyderabad	13.05.2002
Shri Harish Babanrao Sakharakar	ASL, Hyderabad	12.04.2004
Shri Kamari Veera Brahmam	ASL, Hyderabad	23.09.2002
Shri Puneet Anand	DRDL, Hyderabad	06.09.2004
Shri Chimakurthy Srikanth	DRDL, Hyderabad	06.09.2004
Shri More Rohit Raosaheb	DRDL, Hyderabad	06.09.2004
Shri Vivek R.	DRDL, Hyderabad	06.09.2004
Shri Maneesh Kumar Dewangan	DRDL, Hyderabad	06.09.2004

1	2	3
Shri Saptarshi Mondal	DRDL, Hyderabad	06.09.2004
Ms. Bhavmeet	DRDL, Hyderabad	06.09.2004
Shri Pakeeruraju Podugu	DRDL, Hyderabad	06.09.2004
Shri V. Duriyanandhan	DRDL, Hyderabad	06.09.2004
Shri Makavana Dilip Kumar		
Jayantilal	R&DE (E), Pune	12.04.2004

P. SARATH  
Jt. Dir (Pers)

No. 294 dated 24th May 2007.—The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff with effect from 01.05.2007:-

Honorary Naval ADC

Vice Admiral Jagjit Singh Bedi, PVSM, UYSM, AVSM, VSM (01002A)

S.D. BANGA  
Under Secy.

#### NAVY BRANCH

#### (INTEGRATED HQ-MOD (NAVY))

No. 295 dated 24th May 2007.—The President is pleased to appoint Shri Vinay Grover, Personal Assistant, of AFHQ Stenographers Service as Private Secretary (Group 'B' Gazetted in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/-) w.e.f. 18.12.2006.

SHANKAR SINGH  
Dy Chief Administrative Officer (A)

#### AIR BRANCH

No. 296 dated 29th May 2007.—The President is pleased to award Permanent Commission and Wings (On Probation) to the undermentioned flight cadets in the rank of Fg Offr under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC & Wings (On Probation) i.e. 18 Jun 05.

#### INDIAN AIR FORCE

#### FLYING (PILOT) BRANCH

#### EX-FLIGHT CADETS TO BE FLYING OFFICERS

Fg Offr Aditya Pratap Singh (28454) and Akash Chechi (28475) wef 18 Jun 05.

Fg Offr Purohit Naishad Kiritkumar (28441), Amardeep (28443), Danpreet Paul Singh Bali (28446), Parminder Singh (28448), Atul Yadav (28450), Vaibhav Kumar Patel (28451), Amit Kumar Goel (28455), Praveen Kumar (28458), Gautam Cholayill (28461), Manish Arora (28462), Sameer Yadav (28463), Aditya Kadian (28464), Machavarapu Praveen Kumar (28465), Prashant Kumar Pandey (28466), Ravi Kumar Dudi

(28468), Karthik Ramesh (28469), Akshay Bahadur Saxena Sangma (28470), Ganta Mahendra Charles (28471), Shiv Kumar Chauhan (28472), Vishwajeet Tanwar (28473), Ankit Mathur (28474), Thingujam Sumanta Singh (28477), Pawale Atul Vasant (28478), Giri Vardhan Vinnakota (28479), Karan Dogra (28480), Rohit Singh Thakur (284281), Abhijeet Kumar (28483), Vishal Banka (28484), Chintamani Telang (28485), Prakhar Srivastava (28486), Abhishek Tripathi (28487), Anubhav Rao (28490), Rahul Chauhan (28492), Nitin Yadav (28493), Mayank Karpal (28494), Trustine George Jacob (28495), Akhil Sethi (28496), Yogindra Singh Tomar (28497), Aditya Singh Suhag (28498), Rupendra Kumar Mishra (28499), Arun Bhoj (28501), Mukut Basu (28502), Swadhin Kumar Sharma (28503), Chandan Bhuyan (28504), Anish Nagpal (28505), Puneet Bhati (28506), Varun Bhoj (28507) wef 18 Jun 05.

The President is pleased to award Permanent Commission and Brevets (On Probation) to the undermentioned flight cadets in the rank of Fg Offr under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC & Brevets (On Probation) i.e. 18 Jun 05.

#### INDIAN AIR FORCE

##### FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

##### EX-FLIGHT CADETS TO BE FLYING OFFICERS

Fg Offr Vipul Kumar (28444), Ashok Kumar (28447), Somya Surjya Rath (28460), Vijay Kumar Nehra (28467), Nitin Sharma (28488), Bhargava Animesh Lalit (28491), Atul Sinha (28508), and Dhiraj Pratap Singh (28509), wef 18 Jun 05

The President is pleased to grant Permanent Commission (on probation) to the undermentioned officers wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

#### INDIAN AIR FORCE

##### EX-FLIGHT CADETS TO BE FLYING OFFICERS

##### ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Hari Chidambaram (28510), Shyam Sunder Srivastava (28511), Karthikeyan G (28512), Ragunath P (28513), Vijaya Kumar Ganesan (28514), Sunder Venkatasubramanian (28515), Varun Saini (28516), Susant Dey (28517), Sasanapuri Gopi (28518), Dhanraj Gaonkar (28519), Jhulan Kumar Singh (28520), Virendra Prakash (28521), Stanley John Chasthayparambil (28522), Abraham Pankaj (28523), Bijender Singh Rana (28524), Girraj Kishore (28525), Arun Kumar Verma (28526), Baljeet Singh (28527), Ajeet Singh Yadav (28528), Subash Sundaresan (28529), Paras Agarwal (28530), Sajal Kumar Upadhyay (28531), Sijo Kollannoor Jose (28532), Jai Singh Rana (28533), Padala Phanibhushan Dora (28534), Manoj Kumar Kapil (28535), Sharma Abhishek Sambhoo Dayal (28536), Dipankar (28537), Bhoopendra Singh Atri (28538), Anuj Kalaan (28539), Rawat Arvind Singh (28540), Krishna Kumar V (28541), Shaik Haseenul Haq (28542), Sunil Kumar S (28543), G Chandrashekar (28544), Aman Virk (28545), Gurudas Pati (28546), and Ankur Darbari (28547) wef 18 Jun 05.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission and wings to the Undermentioned officers in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D (Air-III) dated 23 Apr 01. These officers are eligible for flying pay wef the dates of grant of PSSC & Wings i.e. 18 Jun 05.

#### INDIAN AIR FORCE

##### FLYING (PILOT) BRANCH

##### EX-FLIGHT CADETS TO BE FLYING OFFICERS

Fg Offr Rupika Dhillon (28564), Sonal Sharma (28565), Jyoti Yadav (28566), Vishnupriya Srinivasan (28567) and Mitali Vats (28568) wef 18 Jun 05.

The President is pleased to terminate the Short Service Commission (on probation) granted to the undermentioned officer and grant him Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the date mentioned against his name under the provisions of AFO 59/98 and AFI 2/73 a/a by Corr 10/84.

#### INDIAN AIR FORCE

##### AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Krishnadas S (28362) wef 30 June 06.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned officers wef the date mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

#### INDIAN AIR FORCE

##### Ex-Flt Cdts to be Fg Offr

##### ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Maya K Nair (28569), Vandana Yadav (28570), Sudeshna Chakraborty (28571), Priti Ojha (28573), Bhopali Biswas (28574), Pallavi Arun (28575), Kiran Negi (28576), Ruchi Sharma (28577), Garima Bist (28579), Nidhi Sharma (28580), wef 18 Jun 05.

##### ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr Rajeev Kaur (28581), Aarohi Bhattacharjee (28582), Priyanka Rajan Joshi (28583), Nidhi Srivastava (28584), Shweta Praveen Jain (28585), Mukesh Kumari (28586), Indu Gautam (28587), and Bhavana Yadav (28588), wef 18 Jun 05.

##### EDUCATION BRANCH

Fg Offr Aditee Arunkumar Yadav (28589), Deepika Rawat (28590), Alka Chaudhary (28591), Rajalakshmi Prithviraj (28592), and Vandana Dixit (28593), wef 18 Jun 05.

N. VIJAY KUMAR  
Wg Cdr  
JDPO-3(D)

## ARMY BRANCH

## MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

No. 297, dated 24th May 2007.—The President is pleased to extend the appointment of the following officiating Section Officers under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 with effect from 24th February 2007 to 23 August 2007 or till regular incumbents become available whichever is earlier —

Name	Date of Birth
1	2
Shri K.C. Bhardwaj	22 Feb 1959
Sita Kant Mishra	25 Jan 1962
Shri S.K. Jain	11 Dec 1963
Shri P.J. Ross	19 Jun 1967
Smt. Anita Kumari	01 Jan 1967
Shri Alok Garg	12 Jun 1963
Shri M. Sham Raj	25 Sep 1949
Shri Gulshan Rai	30 Oct 1968
Shri A.K.L. Das	26 Jan 1966
Shri K.N. Prasad	26 Oct 1965
Shri Desh Raj	05 Oct 1955
Shri Dipak Kumar Das	01 Aug 1966
Shri Raminder Singh	29 May 1969
Shri Rajni Mohan Gupta	10 Jan 1949
Shri Bhagwan Singh Chauhan	03 Jul 1947

2. The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

3. There will be no claim for regular promotion/ appointment on the basis of promotion granted under Rule 7(8) of AFHQ CSR 2001 and the period of such appointment shall not count towards his seniority in the grade of Dy. Director.

SHANKAR SINGH  
Dy. Chief Administrative Officer

## NATIONAL CADET CORPS

No. 298, dated 28th May 2007.—The undermentioned Vice Chancellors are granted the honorary rank of Colonel in the

National Cadet Corps and are appointed as Colonel Commandant of their respective University as shown against their names for the period of their appointment as Vice Chancellor or the said University.

Name of the Vice Chancellor	Name of the Directorate	Name of the University	Date of appointment as Vice Chancellor
1	2	3	4
Prof. Rama Rao Athota, Vice Chancellor	AP	SK University Anantapur, AP.	10 Aug 2005
Prof Om Prakash, Vice Chancellor	UP	MJP Rohelkhand University, Bareilly, UP.	10 Dec 2005
Prof R.P. Agarwal, Vice Chancellor	UP	Bundelkhand University, Jhansi.	06 Dec 2005
Prof Panjab Singh, Vice Chancellor	UP	Banaras Hindu University, Varanasi, UP	03 May 2005
Shri C.P. Barthwal, Vice Chancellor	UC	Kumaon University, Nanital	07 Aug 2006
Prof (Dr.) Thirusagam, Vice Chancellor	TN P&AN	Bharathiar University, Coimbatore, TN P&AN	10 Aug 2006
Prof K.M. Kaveriappa, Vice Chancellor	Kar & Goa	Mangalore University, Karnataka	12 Jan 2006
Dr. B.S. Sherigara, Vice Chancellor	Kar & Goa	Kuvempu University, Karnataka	18 May 2006
Dr. N.K. Jain, Vice Chancellor	Rajasthan	University of Rajasthan, Jaipur	01 Oct 2005
Dr. P. Chandra Mohan, Vice Chancellor	K&I.	Kannur University Mangattuparamba Campus, Kannur Kerala	28 Feb 2005

UK DHAR  
Brig  
Dy. Dir Gen (MS)

No. 299, dated 23rd May 2007—The President is pleased to make the following promotion:—

## REGULAR ARMY

## REGIMENT OF ARTILLERY

## To be Substantive Subedar (RT)

Nb Sub Ashok Kumar Tiwari (JC-256697P), 18 Dec 2005/ 01 Dec 2005\*

Nb Sub Mahavir Sharma (JC-258755M), 20 Dec 2005/ 01 Dec 2005\*



Nb Sub Surendra Kumar Pandey (JC-258759H), 10 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Sub Ramashray Prasad Mishra (JC-258760X), 07 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Sub Arun Kumar Singh (JC-258757X), 05 Dec 2005/01 Dec 2005\*

Nb Sub Chakradhar Pandey (JC-258981K), 22 Feb 2006/13 Jan 2006\*

Nb Sub Rishi Kumar Shukla (JC-258979M), 15 Feb 2006/13 Jan 2006\*

Nb Sub Anand Prakash (JC-258980F), 27 Feb 2006/13 Jan 2006\*

Nb Sub Narayan Datt Mishra (JC-258978K), 13 Feb 2006/13 Jan 2006\*

Nb Sub Umakant Tiwari (JC-258747N), 04 Feb 2006/01 Dec 2005\*

Nb Sub Govind Kumar (JC-258983P), 10 Apr 2006/01 Apr 2006\*

Nb Sub Rajender Prasad Maithani (JC-258985A), 01 Jun 2006

Nb Sub Kamlesh Prasad Mishra (JC-258987L), 01 Jul 2006

Nb Sub Govind Chaturvedi (JC-258988N), 01 Jul 2006

Nb Sub Umesh Kumar Tripathi (JC-258989W), 01 Jul 2006

Nb Sub Om Prakash Pandey (JC-258986H), 01 Sep 2006

Nb Sub Vijay Kumar Shukla (JC-259462N), 07 Jan 2007/01 Dec 2006\*

Nb Sub Raj Kishore Pandey (JC-259459N), 01 Jan 2007/01 Dec 2006\*

Nb Sub Mahendra Kumar Shukla (JC-259460H), 05 Jan 2007/01 Dec 2006\*

Nb Sub Raghwendra Datta Pandey (JC-259461L), 11 Jan 2007/01 Dec 2006\*

Nb Sub Babu Ram Sharma (JC-259606L), 06 Jan 2007/01 Dec 2006\*

Nb Sub Kalu Prasad Mishra (JC-259605H), 08 Jan 2007/01 Jan 2007\*

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Devinder Singh (JC-265567N), 28 Oct 2006/01 Jul 2006\*

Nb Sub Harminder Singh (JC-266996F), 09 Oct 2006/10 Aug 2006\*

Nb Sub Atar Latif Pasha Manik (JC-267159F), 10 Oct 2006/15 Aug 2006\*

Nb Sub Samar Singh (JC-266524L), 03 Oct 2006/01 Sep 2006\*

Nb Sub Bhagwant Singh (JC-266672W), 01 Feb 2007/01 Sep 2006\*

Nb Sub Dhanpat Singh (JC-265504L), 11 Jan 2007/01 Nov 2006\*

Nb Sub Maineger Ram (JC-265957W), 10 Mar 2007/01 Jan 2007\*

Nb Sub Jayapal Kori (JC-265974W), 23 Feb 2007/01 Nov 2006\*

Nb Sub Awadhesh Kumar Singh (JC-265501X), 25 Feb 2007/01 Dec 2006\*

Nb Sub Babu Lal (JC-266038N), 17 Feb 2007/01 Dec 2006\*

Nb Sub Dan Singh (JC-265837X), 08 Mar 2007/01 Dec 2006\*

Nb Sub Ashok Kumar (JC-266992L), 23 Dec 2006/01 Dec 2006\*

Nb Sub Bachchu Singh (JC-266679A), 18 Feb 2007/01 Feb 2007\*

Nb Sub Ram Kishan (JC-266878N), 01 Feb 2007

Nb Sub Sant Lal (JC-267590A), 17 Feb 2007/01 Feb 2007\*

Nb Sub Bhawani Dutt (JC-267435Y), 01 Feb 2007

Nb Sub Jamdade Maruti Balu (JC-267442P), 01 Feb 2007

Nb Sub Hari Singh Yadav (JC-267504K), 23 Feb 2007/04 Feb 2007\*

Nb Sub Ramesh Chander (JC-267587A), 26 Mar 2007/21 Feb 2007\*

Nb Sub Ramesh Chander (JC-267568P), 03 Mar 2007/01 Mar 2007\*

To be Nb Sub

Hav Amrik Singh (No. 14492932N now JC-269851F), 14 Aug 2006/01 Jun 2006\*

Hav Ranjeet Singh Yadav (No. 14482046W now JC-269822K), 03 Nov 2006/01 Jul 2006\*

Hav S Jailu (No. 14397497Y now JC-269853M), 12 Oct 2006/01 Jul 2006\*

Hav Ramveer (No. 14373912W now JC-269854P), 02 Nov 2006/01 Aug 2006\*

Hav Venugopal S (No. 14478116M now JC-269855X), 01 Aug 2006

Hav Virendra Kumar Yadav (No. 14364907K now JC-269856A), 05 Nov 2006/01 Aug 2006\*

Hav Vijay Singh (No. 14366602H now JC-269857H), 11 Oct 2006/31 Aug 2006\*

Hav Gulab Yadav (No. 14482318L now JC-269858L), 01 Sep 2006

Hav Kali Sahay (No. 14366141K now JC-269859N), 27 Sep 2006/01 Sep 2006\*

Hav Annepu Venkata Rao (No. 14371320N now JC-269860H), 01 Nov 2006/01 Sep 2006\*

Hav Shiv Narayan (No. 14375192Y now JC-269861L), 01 Nov 2006/01 Oct 2006\*

Hav Sahadeo Singh (No. 14477014K now JC-269862N), 07 Nov 2006/01 Oct 2006\*

Hav Nagendra Nath Baro (No. 14397082K now JC-269863W), 17 Nov 2006/01 Oct 2006\*

Hav M Rajendran (No. 14482233P now JC-269864Y), 06 Dec 2006/01 Nov 2006\*

Hav Surya Prakash (No. 15104902N now JC-269865F), 04 Nov 2006/01 Nov 2006\*

Hav Hirday Narayan Prasad (No. 15104506X now JC-269866K), 05 Nov 2006/01 Nov 2006\*

\*(Gtd seniority wef)

#### CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

To be Nb Sub

RHM Om Prakash Chaubey (No. 14412163K now JC-299794A), 17 Nov 2006/07 Nov 2006\*

RHM Padmanav Sahoo (No. 14412375P now JC-299795H), 17 Nov 2006/07 Nov 2006\*

RHM Toralekar Rajaram Jotiba (No. 14367611W now JC-299796L), 22 Nov 2006/07 Nov 2006\*

RHM Belliappa MN (No. 14412442P now JC-299797N), 22 Nov 2006/07 Nov 2006\*

Hav Angrej Singh (No. 14406180N now JC-299798W), 01 Jan 2007

Hav Gore Lal Yadav (No. 14406208H now JC-299799Y), 01 Jan 2007

Hav Shakti Singh (No. 14406809N now JC-299800H), 01 Feb 2007

Hav Bachute Laxman Dagadu (No. 14490547L now JC-299801L), 01 Feb 2007

RHM R Unnikrishnan (No. 15113675A now JC-299802N), 01 Feb 2007

RHM Sudheer GP (No. 14408527N now JC-299803W), 31 Jan 2007/13 Jan 2007\*

RHM Raj Narayan Kushwaha (No. 14406459M now JC-299804Y), 31 Jan 2007/13 Jan 2007\*

RHM Utpal Mandal (No. 14409587P now JC-299805F), 29 Jan 2007/13 Jan 2007\*

RHM Franklin C (No. 15762890M now JC-299806K), 29 Jan 2007/13 Jan 2007\*

Hav Bappaditya Chakraborti (No. 14406187X now JC-299807M), 01 Feb 2007

Hav Ramesh Kumar (No. 14386048K now JC-299808P), 01 Feb 2007

Hav Munna Lal Sharma (No. 15102047L now JC-299809X), 01 Feb 2007

RHM Md Ariful Islam (No. 14411684L now JC-299810M), 01 Feb 2007

RHM Uppada Venu (No. 14404905K now JC-299811P), 01 Feb 2007/13 Jan 2007\*

RHM Ram Karana Pal (No. 14408697X now JC-299812X), 03 Feb 2007/13 Jan 2007\*

RHM Debdulal Biswas (No. 15761483X now JC-299813A), 02 Feb 2007/13 Jan 2007\*

RHM Arvind Kumar Gangwar (No. 14408007H now JC-299814H), 31 Jan 2007/07 Nov 2006\*

RHM Pandi Durai N (No. 14411541L now JC-299815L), 22 Nov 2006/07 Nov 2006\*

RHM Brahma Deen (No. 14386348L now JC-299816N), 17 Jan 2007/05 Nov 2006\*

Hav Kishore Kumar (No. 14375831P now JC-299817W), 08 Dec 2006/16 Nov 2006\*

Hav Ganga Vishan (No. 14404642W now JC-299818Y), 28 Jan 2007/28 Nov 2006\*

BHM K Boopathi (No. 14491698W now JC-299819F), 21 Dec 2006/01 Dec 2006\*

BHM Sukhwinder Singh (No. 14379314P now JC-299820W), 04 Jan 2007/01 Dec 2006\*

BHM Bhatt Anil Kumar Janak Lal (No. 14384928F now JC-299821Y), 18 Jan 2007/01 Dec 2006\*

RHM D Thiagarajan (No. 14361742L now JC-299822F), 27 Feb 2007/01 Dec 2006\*

Hav Girdhari Mandal (No. 14496911P now JC-299823K), 01 Jan 2007

Hav Mohinder Singh (No. 14367493N now JC-299824M), 09 Jan 2007/01 Jan 2007\*

BHM Rajender Prasad (No. 14487482X now JC-299825P), 11 Jan 2007/01 Jan 2007\*

Hav Shri Niwas (No. 14375005P now JC-299826X), 19 Jan 2007/01 Jan 2007\*

Hav Krishan Singh (No. 15109342W now JC-299827A), 24 Jan 2007/01 Jan 2007\*

Hav Chittar Singh (No. 14393964N now JC-299828H), 24 Jan 2007/01 Jan 2007\*

BHM Mahendra Nath Gogoi (No. 14371672L now JC-299829L), 27 Jan 2007/01 Jan 2007\*

BHM Jeewan Chandra (No. 14367434F now JC-299830A), 28 Jan 2007/01 Jan 2007\*

BHM Chandra Sing Karpa Rabade (No. 14384721F now JC-299831H), 01 Feb 2007

BHM Nagogi Chikke (No. 14361671P now JC-299832L), 01 Feb 2007

BHM Albert D (No. 14367965Y now JC-299833N), 01 Feb 2007

BHM Vinay Kumar (No. 14379303H now JC-299834W), 06 Feb 2007/01 Feb 2007\*

BHM Satpal Singh (No. 14375707N now JC-299835Y), 08 Feb 2007/01 Feb 2007\*

Hav Dharendra Kumar Singh (No. 14365212N now JC-299836F), 08 Feb 2007/01 Feb 2007\*

BHM Madan Lal (No. 14384273A now JC-299837K), 08 Feb 2007/01 Feb 2007\*

Hav Sumer Singh (No. 14373954H now JC-299838M), 21 Feb 2007/01 Feb 2007\*

BHM Sheo Kumar Sharma (No. 14367809P now JC-299839P), 14 Feb 2007

BHM Sunil Kumar Kishku (No. 14365520N now JC-299840K), 01 Mar 2007

RHM Sukhjiwan Singh (No. 14364559N now JC-299841M), 01 Mar 2007

\*(Gtd ante-date seniority wef)

P RAMA SASTRY  
Under Secy.

No. 300, dated 24th May 2007.—The President is pleased to make the following promotions:—

(REGULAR ARMY)

(ARMY MEDICAL CORPS)

To be Substantive Subedar Major (Clk) (GD)

Sub Lalan Kumar Singh (JC-690737L), 01 Dec 2006

Sub Ramesh Kumar Suthwal (JC-690735A), 01 Jan 2007

Sub Panchanand Singh (JC-690738N), 01 Jan 2007

To be Substantive Subedar Major (Chef H)

Sub Om Prakash Singh (JC-693057W), 01 Oct 2006

To be Substantive Subedar (Clk) (GD)

Nb Sub GH Nabi Wani (JC-693310M), 01 Feb 2007

Nb Sub Yog Raj Sharma (JC-693312X), 01 Mar 2007

Nb Sub Parmeshwar (JC-693357X), 01 Mar 2007

To be Substantive Subedar (SKT)

Nb Sub Suresh Kumar (JC-693419M), 01 Jan 2007

Nb Sub Puran Singh Kotiya (JC-693527W), 01 Feb 2007

Nb Sub Netai Chandra Das (JC-693528Y), 01 Feb 2007

Nb Sub Hanuman Singh Shekhawat (JC-693532F), 01 Feb 2007

Nb Sub Sumer Singh (JC-693558W), 01 Feb 2007

Nb Sub Hoshiyar Singh (JC-693581K), 01 Mar 2007

Nb Sub Laxmi Prasad (JC-693672N), 01 Mar 2007

R C RATURI  
Under Secy.

No. 301, dated 24th May 2007.—The President is pleased to make the following promotions:—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

Maj M Aruchamy (TA-41919), Inf, 16 Dec 2004

Maj DS Roka (TA-41958), Inf, 16 Dec 2004

Maj DJS Gill (TA-42010), Inf, 04 Feb 2005

Maj Ivan Singh (TA-42060), Inf, 16 Dec 2004

Maj BS Nagial (TA-42097), Inf, 20 Jul 2006

Maj PS Mavi (TA-42189), Inf, 16 Dec 2004

Maj JS Brar (TA-42259), Inf, 16 Dec 2004

Maj Yash Rathore (TA-42361), Inf, 24 Jul 2005

To be Nb Sub					
Army No	Now TJ No	Rank	Name	Unit	Wef
1	2	3	4	5	6
10182077	TJ-5533	Hav	Krishna Deo Sharma	151 Inf Bn (TA) Jat	09 Mar 2007
10302889	TJ-5534	Do.	Hargovind Singh	Do.	Do.
10260320	TJ-5535	Do.	Nawal Kishor	120 Inf Bn (TA) Bihar	15 Mar 2007
10260292	TJ-5536	Do.	Devendra Paswan	Do.	Do.
10245208	TJ-5537	Do.	Prabin Roy	119 Inf Bn (TA) Assam	22 Mar 2007
10245033	TJ-5538	Do.	Prakas Muktan	Do.	Do.
10374341	TJ-5539	Do.	Suman Khaling	107 Inf Bn (TA) 11 GR.	Do.
10374302	TJ-5540	Do.	Manoj Tamang	Do.	Do.
10135102	TJ-5541	Do.	Ram Charan Lal	156 Inf Bn (TA) Punjab	31 Mar 2007
10362102	TJ-5542	Do.	Saroop Lal	155 Inf Bn (TA) Jak Rif	02 Apr 2007
12383304	TJ-5523	Do.	B Swamy R	1105 Rly Engr Regt (TA)	27 Feb 2007
12384937	TJ-5524	Do.	MN Venkata Rathnam	Do.	Do.
12383447	TJ-5525	Do.	N Siva Ramakrishna	Do.	26 Feb 2007
12384900	TJ-5526	Do.	P Sudhakar	Do.	Do.
12384781	TJ-5527	Do.	Z Srinivas Rao	Do.	27 Feb 2007
12383389	TJ-5528	Do.	MVV Rasad Babu	Do.	26 Feb 2007
12383429	TJ-5529	Do.	B Konda Naik	Do.	Do.
10314832	TJ-5530	Do.	Shiv Kumar Kori	157 Inf Bn (TA) Sikh	01 Mar 2007
10389907	TJ-5531	Do.	Atul Prakash Shukla	151 Inf Bn (TA) Jat	09 Mar 2007
10405437	TJ-5532	Do.	Ganesh Chandra	Do.	Do.
10197937	TJ-5513	Do.	Rumal Singh	153 Inf Bn (TA) Dogra	15 Feb 2007
10135294	TJ-5514	Do.	Chander Vir Singh	Do.	Do.
10135312	TJ-5515	Do.	Babu Ram Sharma	Do.	Do.
10479723	TJ-5516	Do.	Malkit Singh	103 Inf Bn (TA) Sikh LI	20 Feb 2007
10479773	TJ-5517	Do.	Kewal Singh	Do.	Do.
10479892	TJ-5518	Do.	Ravinder Singh	Do.	Do.
10480042	TJ-5519	Do.	Avtar Singh	Do.	Do.
10479863	TJ-5520	Do.	Ram Gopal Sharma	Do.	Do.
12383395	TJ-5521	Do.	SK Noor Ahmed Jani	1105 Rly Engr Regt (TA)	22 Feb 2007
12383475	TJ-5522	Do.	SR Meena	Do.	26 Feb 2007
10390095	TJ-5502	Do.	Ram Chandra	160 Inf BN (TA) Jak Rif	11 Dec 2006
10291077	TJ-5503	Do.	Hari Krishnan VV	Do.	Do.
10405364	TJ-5504	Do.	Shishu Pal Singh	114 Inf Bn (TA) Jat	15 Dec 2006
10436961	TJ-5505	Do.	Radhe Shyam	116 Inf Bn (TA) PARA	02 Jan 2007
10436987	TJ-5506	Do.	Bijuraj VR	Do.	Do.
10274454	TJ-5507	Do.	Ramesh Shill	121 Inf Bn (TA) Garh Rif	04 Jan 2007
10245147	TJ-5508	Hav.	Ph Inao Singh	119 Inf Bn (TA) Assam	16 Jan 2007
10245161	TJ-5509	Do.	Ajit Kumar Singha	Do.	Do.
10466725	TJ-5510	Do.	Dheeraj Jaswal	156 Inf Bn (TA) Punjab	24 Jan 2007

1	2	3	4	5	6
10466759	TJ-5511	Hav	Sukh Dev	156 Inf Bn (TA) Punjab	24 Jan 2007.
10181956	TJ-5492	Do.	Kalika Ram	157 Inf Bn (TA) Sikh	03 Nov 2006
10182110	TJ-5493	Do.	Ganga Prasad	Do.	Do.
10420996	TJ-5494	Do.	Satyappa Badiger	115 Inf Bn (TA) Mahar	15 Nov 2006
10182193	TJ-5495	Do.	Keshav Kumar	111 Inf Bn (TA) Kumaon	16 Nov 2006
10166335	TJ-5496	Do.	Murugan	110 Inf Bn (TA) Madras	21 Nov 2006
10212861	TJ-5497	Do.	Narayan Chanda	113 Inf Bn (TA) Rajput	30 Nov 2006
10119759	TJ-5498	Do.	Sonwane Vilas	101 Inf Bn (TA) Maratha LI	Do.
10274404	TJ-5499	Do.	Sanjoy Kumar Singh	121 Inf Bn (TA) Garh Rif	11 Dec 2006
10260363	TJ-5500	Do.	Ram Awatar Dubey	160 Inf Bn (TA) Jak Rif	Do.
10315098	TJ-5501	Do.	Anand Singh	Do.	Do.
10260092	TJ-5477	Do.	Choudhary PK Ray	154 Inf Bn (TA) Bihar	21 Sep 2006
10260263	TJ-5478	Do.	Dusasan Rout	Do.	Do.
10466694	TJ-5479	Do.	Kailash Chand	102 Inf Bn (TA) Punjab	Do.
10260279	TJ-5480	Do.	Chandrakanta Nayak	154 Inf Bn (TA) Bihar	25 Sep 2006
10182017	TJ-5481	Do.	Munesh	Do.	Do.
10260193	TJ-5482	Do.	Karunakar Parhi	Do.	Do.
10212640	TJ-5483	Do.	Raj Kishor Prasad	113 Inf Bn (TA) Rajput	28 Sep 2006
10212931	TJ-5484	Do.	Subir Kumar Dey	Do.	Do.
10452474	TJ-5488	Do.	P Selvaraj	117 Inf Bn (TA) Guards	23 Oct 2006
10135151	TJ-5491	Do.	Vijendra Singh	105 Inf Bn (TA) Raj Rif	30 Oct 2006
10452434	TJ-5467	Do.	T Palani	117 Inf Bn (TA) The Guards	30 Aug 2006
10182135	TJ-5468	Do.	Raj Kumar Panday	111 Inf Bn (TA) Kumaon	Do
10150000	TJ-5469	Do.	Gurav Umaji Vishnu	109 Inf Bn (TA) Maratha LI	Do
10388905	TJ-5470	Do.	Ashok Kumar Patel	151 Inf Bn (TA) Jat	Do.
10405221	TJ-5471	Do.	Anil Kumar	Do.	Do.
10274173	TJ-5472	Do.	Vishnoo Pratap Singh	121 Inf Bn (TA) Garh Rif	07 Sep 2006
10274251	TJ-5473	Do.	Ram Niwas Yadav	Do.	Do
12687682	TJ-5474	Hav/AA	Bhanwar Singh	GH (TA) Jaipur	11 Sep 2006
10302782	TJ-5475	Hav	Mohan Lal	160 Inf Bn (TA) Jak Rif	15 Sep 2006
10420837	TJ-5476	Do.	Pagi Pandurang Raya	115 Inf Bn (TA) Mahar	Do.
10466678	TJ-5457	Do.	Balwan Singh	102 Inf Bn (TA) Punjab	25 Jul 2006
10119367	TJ-5458	Do.	Atarnajir Kashim	101 Inf Bn (TA) Maratha LI	31 Jul 2006
10149947	TJ-5459	Do.	Shinde Sanjay Yashawant	109 Inf Bn (TA) Maratha LI	06 Aug 2006
10244982	TJ-5460	Do.	A Ingocha Singh	119 Inf Bn (TA) Assam	17 Aug 2006
10245088	TJ-5461	Do.	Sukhdeb Bordoloi	119 Inf Bn (TA) Assam	Do.
10329087	TJ-5462	Do.	M Madhu	125 Inf Bn (TA) The Guards	23 May 2006
10329106	TJ-5463	Do.	P Goverdhan Reddy	Do.	Do.
10302777	TJ-5464	Do.	Surendra Singh	123 Inf Bn (TA) Grenadiers	24 Aug 2006
10302798	TJ-5465	Do.	Raghunath Sahai	Do.	Do.
12684556	TJ-5466	Hav/NA	ASK Singh	GH/(TA) Allahabad	28 Aug 2006

1	2	3	4	5	6
10197640	TJ-5446	Hav	Sukhari Ram	153 Inf Bn (TA) Dogra	01 Feb 2003
10197817	TJ-5447	Do.	Baljit Raj	Do.	Do.
10260150	TJ-5448	Do.	Jay Ram Sharma	154 Inf Bn (TA) Bihar	06 Jul 2006
10166318	TJ-5449	Do.	B Lucas	110 Inf Bn (TA) Madras	18 Jul 2006
10260178	TJ-5450	Do.	Sangram Keshari Baralo	120 Inf Bn (TA) Bihar	Do.
10227798	TJ-5451	Do.	Rajendra Prasad	118 Inf Bn (TA) Grenadiers	Do.
10314920	TJ-5453	Do.	Tilak Raj	124 Inf Bn (TA) Sikh	20 Jul 2006
10466565	TJ-5454	Do.	Hoshiar Singh	102 Inf Bn (TA) Punjab	25 Jul 2006
10467035	TJ-5455	Do.	Jile Singh	Do.	Do.
10466696	TJ-5456	Do.	Harnam Singh	Do.	Do.
10374206	TJ-5436	Do.	Prem Kumar Tamang	107 Inf Bn (TA) 11 GR	18 Jun 2006
10315111	TJ-5437	Do.	Pradeep Kumar	152 Inf Bn (TA) Sikh	22 Jun 2006
10314999	TJ-5438	Do.	Chaman Kesh	Do.	Do.
10315103	TJ-5439	Do.	Rajeshwer Dutt	Do.	Do.
10290616	TJ-5440	Do.	Raju KN	122 Inf Bn (TA) Madras	23 Jun 2006
10290871	TJ-5441	Do.	Ashokan PNP	Do.	Do.
10290982	TJ-5442	Do.	Varghese CJ	Do.	Do.
10291039	TJ-5443	Do.	Sudheer Kumar MP	Do.	Do.
10314982	TJ-5444	Do.	Bhupender Pal	158 Inf Bn (TA) Sikh LI	30 Jun 2006
10260296	TJ-5445	Do.	Rajesh Paswan	Do.	Do.
10466616	TJ-5417	Do.	Het Ram	150 Inf Bn (TA) Punjab	05 Jun 2006
10135176	TJ-5418	Do.	Ajit Singh	Do.	Do.
10149813	TJ-5419	Do.	Patil Bharat Pandurang	109 Inf Bn (TA) Maratha LI	07 Jun 2006
10149910	TJ-5420	Do.	Subhedar Akaram Maruit	Do.	Do.
10151011	TJ-5421	Do.	Kulkarni Vithal Narayan	Do.	Do.
10149915	TJ-5422	Do.	Desai Shivaji Raja Ram	Do.	Do.
10149930	TJ-5423	Do.	Jagatap Namadev Balu	Do.	Do.
10302828	TJ-5424	Do.	Ashok Singh	123 Inf Bn (TA) Grenadiers	Do.
10374242	TJ-5434	Do.	Kharka Bahadur Tamang	107 Inf Bn (TA) 11 GR	18 Jun 2006
10374202	TJ-5435	Do.	Basant Rai	Do.	Do.
10315159	TJ-5405	Do.	Patap Chand	152 Inf Bn (TA) Sikh	15 May 2006
12383377	TJ-5408	Do.	P Ramana	1105 Rly Engr Regt (TA)	22 May 2006
12384835	TJ-5409	Do.	B Vijay Kumar	1105 Rly Engr Regt (TA)	Do.
10260305	TJ-5410	Do.	Purandar Sahu	120 Inf Bn (TA) Bihar	Do.
10361935	TJ-5411	Do.	Desh Raj	126 Inf Bn (TA) JAK Rif	01 Jun 2006
10315035	TJ-5412	Do.	Sunil Kumar Sharma	152 Inf Bn (TA) Sikh	29 May 2006
10315042	TJ-5413	Do.	Rajvir Singh	Do.	Do.
10182062	TJ-5414	Do.	Dal Jeet Singh	111 Inf Bn (TA) Kumaon	30 May 2006
10245022	TJ-5415	Do.	Manoj Haldar	119 Inf Bn (TA) Assam	02 Jun 2006
10245035	TJ-5416	Do.	Bidhu Mahanta	119 Inf Bn (TA) Assam	Do.
10314767	TJ-5394	Do.	Shaym Babu Yadav	157 Inf Bn (TA) Sikh	13 Apr 2006

1	2	3	4	5	6
10405426	TJ-5395	Hav.	Raj Deepak	114 Inf Bn (TA) Jat	24 Apr 2006
10315021	TJ-5397	Do.	Satyaveer Singh Yadav	152 Inf Bn (TA) Sikh	02 May 2006
10315036	TJ-5398	Do.	Ram Krishna Yadav	152 Inf Bn (TA) Sikh	Do.
10315064	TJ-5399	Do.	Ibney Ali	Do.	Do.
10452438	TJ-5400	Do.	Kanikkairaj A	117 Inf Bn (TA) Guards	10 May 2006
10361726	TJ-5401	Do.	Ram Paul	126 Inf Bn (TA) Jak Rif	Do.
10361797	TJ-5402	Do.	Devi Singh	Do.	Do.
10361928	TJ-5403	Do.	Surender Kumar	Do.	Do.
10315093	TJ-5404	Do.	Chaman Prakash	152 Inf Bn (TA) Sikh	15 May 2006
12383325	TJ-5384	Do.	K Parthasarthy	1105 Rly Engr Regt (TA)	24 Mar 2006
12390812	TJ-5385	Do.	R Vimalanathan	Do.	Do.
12383348	TJ-5386	Do.	Narasinga Prasad	Do.	Do.
12384787	TJ-5387	Do.	AG Venkatesan	Dq.	Do.
12390813	TJ-5388	Do.	S Subash	Do.	Do.
10244908	TJ-5389	Do.	Dhaniram Basumatary	119 Inf Bn (TA) Assam	28 Mar 2006
10244965	TJ-5390	Do.	Bishnu Ram Nath	Do.	Do.
10244981	TJ-5391	Do.	Kailash Patgiri	Do.	Do.
10361832	TJ-5392	Do.	Jasbir Singh	126 Inf Bn (TA) Jak Rif	Do.
10290577	TJ-5393	Do.	Radhakrishnan EK	122 Inf Bn (TA) Madras	10 Apr 2006
12383303	TJ-5374	Do.	M Surendar	1105 Rly Engr Regt (TA)	24 Mar 2006
12383401	TJ-5375	Do.	D Bensley	Do.	Do.
12384745	TJ-5376	Do.	J Ravi Naidu	Do.	Do.
12383296	TJ-5377	Do.	TVKM Chalapati Rao	Do.	Do.
12390920	TJ-5378	Do.	T Prabhucharan	Do.	Do.
12390866	TJ-5379	Do.	Haripal Singh	Do.	Do.
12384908	TJ-5380	Do.	Md. Nasir	Do.	Do.
12384754	TJ-5381	Do.	S Deva Das	Do.	Do.
12384841	TJ-5382	Do.	V Prasad	Do.	Do.
12384756	TJ-53783	Do.	SA Hameed	Do.	Do.
10314813	TJ-5362	Do.	Sukhpal Singh	124 Inf Bn (TA) Sikh	31 Jan 2006
10303725	TJ-5364	Do.	Bhan Singh	123 Inf Bn (TA) Grenadiers	15 Feb 2006
10302739	TJ-5365	Do.	Pritam Singh	Do.	Do.
10197847	TJ-5366	Do.	Kishan Singh Rana	159 Inf Bn (TA) Gogra	17 Feb 2006
10374014	TJ-5367	Do.	Ganesh Rai	107 Inf Bn (TA) 11 GR	27 Feb 2006
10314862	TJ-5368	Do.	Satish Kumar	124 Inf Bn (TA) Sikh	28 Feb 2006
10437023	TJ-5369	Do.	Biju Augusthy	116 Inf Bn (TA) Para	28 Feb 2006
10437074	TJ-5370	Do.	Narendra Singh	Do.	Do.
10466609	TJ-5371	Do.	Ajad Singh	150 Inf Bn (TA) Punjab	Do.
12384782	TJ-5373	Do.	VS Vara Prasad	1105 Rly Engr Regt (TA)	24 Mar 2006

No. 302, dated 29th May 2007—The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79 as amended:—

REGULAR ARMY  
ARMY DENTAL CORPS  
SHORT SERVICE COMMISSION

Flt Lt to be Sqd Ldr.

Shilpa Srivatsa DS-12065A (AF-26906F), 19 Oct 2006

DK TANEJA  
Maj Gen  
Addl. DGDS

No. 303, dated 29th May 2007—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION  
(ARMY MEDICAL CORPS)

Brig (& equivalent) to be Maj Gen (& equivalent)

G Rajagopal (MR-02962H), 01 Jan 2007

Col (& equivalent) to be Brig (& equivalent)

MN Sree Ram (MR-04301F), 01 Jan 2007, with notional seniority without effect on Pay & pension from 01 Dec 2006.

RAJESH KAMRAN  
Brig  
Dy. DGAFMS (P)

No. 304, dated 28th May 2007—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

IC No., Name, Arm and W.E.F

IC-50240 Sailesh Tondon, ASC 16 Dec 2004  
IC-54173 Rajesh Vij, AOC, 16 Dec 2004  
IC-54580 Prashant Kumar Tripathi, Engrs, 12 Jun 2004  
(But Pay & Allowances wef 01 Nov 2004)  
IC-58474 Santosh Kumar, Inf, 16 Dec 2004  
IC-59850 Chandra Mauli Singh, AAD, 10 Jun 2006  
IC-60127 Kumar Gaurav, Arty, 09 Dec 2006  
IC-60150 Amit Samanta Arty, 09 Dec 2006  
IC-60202 Pracheesh Tiwari, Arty, 09 Dec 2006  
IC-60273 Vikram Vinayak Kelkar, Arty, 09 Dec 2006  
IC-60312 Gouri Shankar A Pillai, Int, 09 Dec 2006  
IC-60319 Rajesh Mehta, Inf, 09 Dec 2006  
IC-60324 Chendil Kumar J, Mech Inf, 09 Dec 2006  
IC-60347 Amit Ranjan, AOC, 09 Dec 2006  
IC-60352 Kamlesh Singh Rathore, Arty, 09 Dec 2006  
IC-60479 K Srikant, Arty, 09 Dec 2006  
IC-62442 Girish S Mahindrakar, EME, 11 Jun 2006  
IC-62947 Abhijit Kotasthane, EME 10 Dec 2006  
IC-64838 Kishore Srivastava, Arty 04 Nov 2006  
IC-64904 Prabhat Sharma, AAD, 04 Nov 2006

SHIV RAM BAIRWA  
Dy. Dir MS-8C

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 305, Date 29th May 2007—The President is pleased to make Substantive promotion of Lt General to the following officer:—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION  
To be Substantive Lt. General

Rank, Name, IC No., Arm and Date of subs rank  
Maj Gen Rajender Singh, SM, VSM (IC-23928), Kumaon,  
26 Sep 2006

N.K. PHUKAN  
AMS/MS(X)

AIR BRANCH

No. 306, dated 25th May 2007—The President is pleased to make the following Substantive promotion:—

INDIAN AIR FORCE  
FLYING BRANCH

To be Substantive Air Cmde (Flying Branch)

Rank, Name, Number, BR and Date  
Air Cmde/ACTG M Bahadur (14665), F(P), 23 Nov 2006/10  
Jul 2006 (For Seniority Purpose only)

Air Cmde/ACTG RG Burli (14667), F(P), 17 Oct 2006/  
10 Jul 2006 (For Seniority Purpose only)

(Their Names will appear above Air Cmde a Aneja (14668)  
F(P) in the Combined Gradation List)

Air Cmde/ACTG M Kumar (14674), F(P), 01 Nov 2006  
(His name will appear below Air Cmde S Sukumar (14672)  
F(P) in the Combined Gradation List)

Air Cmde/ACTG TK Nair (14680), F(P), 01 Nov 2006  
Air Cmde/ACTG SS Soman (14681), F(P), 20 Nov 2006  
Air Cmde/ACTG TK Chatterjee (14687), F(P), 11 Dec 2006  
Air Cmde/ACTG AP Garud (14692), F(P), 18 Dec 2006  
Air Cmde/ACTG PM Katti (15005), F(P), 01 Jan 2007  
Air Cmde/ACTG PP Reddy (15008), F(P), 05 Jan 2007  
Air Cmde/ACTG PNR Govind (15019), F(P), 07 Feb 2007/  
01 Feb 2007 (For Seniority Purpose Only)  
Air Cmde/ACTG AC Bharali (15049), F(P), 01 Feb 2007

AE BRANCH

To be Substantive Air Cmde (AE Branch)

Particulars of the Air Officer and Date  
Air Cmde/ACTG PK Srivastava (14160), AE(L), 01 Sep  
2006

(His name will appear between Air Cmde MS Ravindra  
(14139), AE(L) and N Kumar (14312), AE(L) in the Combined  
Gradation List)

Air Cmde/ACTG AK Sinha (14336), AE(L), 03 Oct 2006  
Air Cmde/ACTG R Mital (14167), AE(L), 03 Oct 2006

(Their names will appear above Air Cmde V Sehgal (14322),  
AE(L) in the Combined Gradation List)

Air Cmde/ACTG A Singhal (14615), AE(L), 20 Nov 2006  
(His name will appear below Air Cmde V Sehgal (14322),  
AE(L) in the Combined Gradation List)



Air Cmde/ACTG VK Narang (14326), AE(L), 01 Dec 2006  
 Air Cmde/ACTG MS Krishnan (14584), AE(L), 01 Dec 2006  
 Air Cmde/ACTG SK Gupta (14595), AE(L), 02 Jan 2007  
 Air Cmde/ACTG J Chandra (14613), AE(L), 02 Jan 2006  
 Air Cn.de/ACTG KN Kumar (14627), AE(M), 01 Feb 2007  
 Air Cmde/ACTG AK Singh (14616), AE(L), 01 Feb 2007  
 Air Cmde/ACTG MR Singh (14768), AE(M), 01 Feb 2007

To be Substantive Gp Capt (AE Branch)

Particular of the Officers and Date

Gp Capt/ACTG P Chakraborty (15632), AE(L), 01 Aug 2006/  
 09 Jun 2005(NS)

(His Name will appear between GP Capts IJ Singh (15637)  
 AE(M) and SP Yadav (15840) AE(M) in the Combined  
 Gradation List)

To be substantive Wg Cdrs (AE Branch)

ER Satheesan (Retd) (17292), AE(L), 01 Dec 2001

(His name will appear between Wg Cdrs PK Shrivastava  
 (17283), AE(M) and S Saxena (17278), AE(M) in the Combined  
 Gradation List)

VJM Berakya (17298), AE(L), 09 Dec 2001

(His name will appear between Wg Cdrs A Shukla (17276),  
 AE(M) and Sanjay Kumar (17275), AE(M) in the Combined  
 Gradation List)

R Soundararajan (17418), AE(L), 01 Apr 2002

(His Name will appear between WG CDRS R Tomar (17425),  
 AE(L) and S Kishore (17429) AE(M) in the Combined  
 Gradation List)

MR Vaggar (16755), AE(M), 01 Jul 2003

#### LGS BRANCH

To be Substantive Wg Cdr

Rank Name, Number, BR and Date

Wg CDR RK Raksha (16444), LGS, 01 Aug 2002

#### ADM BRANCH

To be Substantive Wg Cdr (ADM Branch)

Particular of the Officer and Date

W/C B Singh (16260), ADM, 01 Oct 2002

(His Name will appear between Wg Cdrs SK Das (16108)  
 ADM and RK Pandey (16643), ADM in the Combined Gradation  
 List)

#### FLYING BRANCH

To be Substantive Wg Cdr (Flying Branch)

Rank, Name, Number, BR and Date of Subs

WCBG Karve (17877), F(P), 07 Jun 2004/13 May 2002(NS)

His name will appear above Wg Cdr U Rakhra (18071) F(P)  
 in the Combined Gradation List

WC JS Rana (18132), F(P), 05 May 2003

WCRGK Kapoor (18253), F(P), 05 May 2003

WC JS Johar (18254), F(P), 05 May 2003

WC VS Chauhan (18255), F(P), 05 May 2003

WC KK Khera (18256), F(P), 05 May 2003

WC MR Anand (18257), F(P), 05 May 2003

WC A Rathore (18258), F(P), 05 May 2003

WC SK Mohlah (18259), F(P), 05 May 2003

WC SP Singh (18260), F(P), 05 May 2003

WC GK Malviya (18261), F(P), 08 Aug 2003/05 May  
 2003(NS)

WC MSR Reddy (Retd) (18262), F(P), 05 May 2003

WCP Dua (18266), F(P), 05 May 2003

WC A Shrigannavar (18267), F(P), 05 May 2003

WC A Bhardwaj (18268), F(P), 05 May 2003

WC N Tiwari (18270), F(P), 25 Jun 2003/05 May 2003(NS)

WC A Choudhry (18271), F(P), 05 May 2003

WC SB Sarkar (18272), F(P), 05 May 2003

WC S Roy (18273), F(P), 05 May 2003

WC S Gera (18275), F(P), 05 May 2003

WC AK Sen (18278), F(P), 16 May 2003/05 May 2003(NS)

WC S Banerjee (18279), F(P), 16 May 2003/05 May 2003(NS)

WC A Joshi (18280), F(P), 05 May 2003

WC BV Upadhyay (18281), F(P), 08 Jul 2004/05 May  
 2003(NS)

WC CHN Kumar (18283), F(P), 05 May 2003

WC AK Singh (18284), F(P), 05 May 2003

WC RC Mohile (18287), F(P), 05 May 2003

WC GC Mishra (18288), F(P), 05 May 2003

WC B Manikantan (18291), F(P), 05 May 2003

WC K Srinivasulu (18293), F(P), 05 May 2003

WC AK Sharma (18294), F(P), 05 May 2003

WC S Dhankar (18295), F(P), 27 Jan 2004/05 May 2003(NS)

WC SK Indoria (18296), F(P), 05 May 2003

WC BS Yadav (Retd) (18297), F(P), 05 May 2003

WC NS Verma (Retd) (18298), F(P), 19 May 2003/05 May  
 2003(NS)

WC SC Dsouza (18299), F(P), 05 May 2003

WC B Saju (18300), F(P), 05 May 2003

WC MK Pandey (18301), F(P), 05 May 2003

WC ZA Gafoor (18304), F(P), 05 May 2003

WC VB Sethi (18305), F(P), 05 May 2003

WC VK Singh (18306), F(P), 05 May 2003

WC DK Berry (Retd) (18307), F(P), 05 May 2003

WC S Chauhan (18550), F(P), 05 May 2003

WCRS Makker (18551), F(P), 05 May 2003

WCR Bharadwaj (18552), F(P), 05 May 2003

WC A Sabharwal (18553), F(P), 05 May 2003

WCM Khanna (18554), F(P), 05 May 2003

WC AC Chopra (18555), F(P), 05 May 2003

WCRK Chauhan (18556), F(P), 05 May 2003

WC N Kapoor (18557), F(P), 05 May 2003

WC A Dixit (18558), F(P), 05 May 2003

- WC CK Bharara (18560), F(P), 05 May 2003  
 WC B Balachandran (18561), F(P), 05 May 2003  
 WC M Gupta (18562), F(P), 08 May 2003/05 May 2003(NS)  
 WC S Singh (18563), F(P), 05 May 2003  
 WC V Singh (18564), F(P), 16 Jun 2003/05 May 2003(NS)  
 WC R Khanna (Retd) (18565), F(P), 05 May 2003  
 WC NK Dahiya (18567), F(P), 05 May 2003  
 WC DV Wani (18568), F(P), 05 May 2003  
 WC S Srivastava (18569), F(P), 05 May 2003  
 WC M Mohan (18570), F(P), 05 May 2003  
 WC RR Tyagi (18571), F(P), 05 May 2003  
 WC J Singh (18572), F(P), 28 Jul 2003/05 May 2003(NS)  
 WC KK Manglik (18574), F(P), 05 May 2003  
 WC J Mishra (18575), F(P), 05 May 2003  
 WC CS Malik (18576), F(P), 05 May 2003  
 WC KRA Rao (18577), F(P), 05 May 2003  
 WC AK Sharma (18578), F(P), 30 June 2003/05 May 2003(NS)  
 WC V Bhalotra (18579), F(P), 05 May 2003  
 WC D Singh (18580), F(P), 05 May 2003  
 WC D Upadhaya (18581), F(P), 05 May 2003  
 WC U Kumar (18582), F(P), 05 May 2003  
 WC S Sanjay (18584), F(P), 05 May 2003  
 WC KJS Dihot (18585), F(P), 05 May 2003  
 WC M Ranade (18586), F(P), 05 May 2003  
 WC R Murali (18587), F(P), 10 Nov 2003/05 May 2003(NS)  
 WC VA Kulkarni (18589), F(P), 05 May 2003  
 WC AS Kulkarni (18590), F(P), 05 May 2003  
 WC ST George (18591), F(P), 05 May 2003  
 WC G Singh (18592), F(P), 05 May 2003  
 WC TS Rao (Retd) (18593), F(P), 05 May 2003  
 WC AS Pathania (18594), F(P), 05 May 2003  
 WC L Kumar (18596), F(P), 05 May 2003  
 WC PK Singh (18597), F(P), 05 May 2003  
 WC S Kaura (18598), F(P), 05 May 2003  
 WC A Singh (18599), F(P), 05 May 2003  
 WC KR Visweswaran (18690), F(P), 05 May 2003  
 WC B Ahluwalia (18691), F(P), 05 May 2003  
 WC MK Sihag (18692), F(P), 05 May 2003  
 WC GS Padda (18303), F(P), 11 May 2004  
 WC A Singh (18588), F(P), 11 May 2004  
 WC SK Dwivedi (18693), F(P), 11 May 2004  
 WC AK Bharti (18781), F(P), 11 May 2004  
 WC S Aggarwal (18782), F(P), 11 May 2004  
 WC AR Gore (18783), F(P), 11 May 2004  
 WC RK Oberoi (18784), F(P), 11 May 2004  
 WC A Lal (18785), F(P), 11 May 2004  
 WC J Antony (18786), F(P), 11 May 2004  
 WC S Shrinivas (18787), F(P), 11 May 2004  
 WC A Nautiyal (18789), F(P), 11 May 2004  
 WC A Kumar (18790), F(P), 11 May 2004  
 WC RN Rao (18792), F(P), 11 May 2004  
 WC A Shukla (18793), F(P), 11 May 2004  
 WC A Ahmed (18794), F(P), 11 May 2004  
 WC BM Tyagi (18795), F(P), 11 May 2004  
 WC P Kumar (18796), F(P), 11 May 2004  
 WC R Sinha (18797), F(P), 11 May 2004  
 WC R Vaid (18798), F(P), 11 May 2004  
 WC N Kankar (18799), F(P), 11 May 2004  
 WC Haider Ali (18800), F(P), 11 May 2004  
 WC A Vohra (18801), F(P), 17 May 2004/11 May 2004(NS)  
 WC OJS Malhi (18803), F(P), 11 May 2004  
 WC K Allen (18805), F(P), 30 Jul 2004/11 May 2004(NS)  
 WC T Singh (18806), F(P), 11 May 2004  
 WC R Dineshan (18807), F(P), 11 May 2004  
 WC DK Chughha (18808), F(P), 11 May 2004  
 WC PK Prasad (18809), F(P), 11 May 2004  
 WC R Rajan (18810), F(P), 11 May 2004  
 WC A Sharma (18811), F(P), 11 May 2004  
 WC CK Kumar (18812), F(P), 11 May 2004  
 WC V Dedgaonkar (18813), F(P), 11 May 2004  
 WC RG Reuben (18814), F(P), 11 May 2004  
 WC SC Mishra (18815), F(P), 11 May 2004  
 WC S Srivastava (18816), F(P), 11 May 2004  
 WC JM Manthana (18817), F(P), 11 May 2004  
 WC TS Chauhan (18821), F(P), 11 May 2004  
 WC KSK Suresh (18822), F(P), 11 May 2004  
 WC M Marathe (18824), F(P), 08 Jun 2004/11 May 2004(NS)  
 WC SK Vidhate (18825), F(P), 11 May 2004  
 WC S Chaudhary (18826), F(P), 11 May 2004  
 WC S Gupta (18827), F(P), 11 May 2004  
 WC TK Varghese (18829), F(P), 11 May 2004  
 WC B Johri (18831), F(P), 11 May 2004  
 WC SB Todkar (18833), F(P), 11 May 2004  
 WC S Das (18836), F(P), 11 May 2004  
 WC PK Bharadwaj (18837), F(P), 11 May 2004  
 WC SK Bhatnagar (18838), F(P), 11 May 2004  
 WC S Bhattacharjee (18840), F(P), 11 May 2004  
 WC KPG Singh (18842), F(P), 11 May 2004  
 WC R Singh (18844), F(P), 11 May 2004  
 WC AK Tripathi (18845), F(P), 11 May 2004  
 WC MS Awana (19153), F(P), 11 May 2004  
 WC GK Panda (19154), F(P), 11 May 2004  
 WC A Sen (19155), F(P), 11 May 2004  
 WC V Sahni (19156), F(P), 11 May 2004  
 WC JS Dhamoon (19157), F(P), 11 May 2004  
 WC AS Dange (19161), F(P), 11 May 2004  
 WC PK Vohra (19162), F(P), 11 May 2004  
 WC S Chandra (19164), F(P), 11 May 2004  
 WC S Sapra (19165), F(P), 19 Jul 2004/ 11 May 2004(NS)

WCR Goyal (19166), F(P), 11 May 2004	WCS Jose (18839), F(P), 01 Sep 2006/11 May 2004(NS)
WCR Chawla (19168), F(P), 11 May 2004	WCN Bhalla (19160), F(P), 22 Mar 2006/11 May 2004(NS)
WCR Purohit (19170), F(P), 11 May 2004	A Vashist (17332), F(P), 07 Jun 2001/15 May 2000(NS)
WCG Balaji (19171), F(P), 11 May 2004	(His Name will appear above W/C A Arora (17333), F(P) in the Combined Gradation List)
WCMK Srivastava (19173), F(P), 11 May 2004	P K Sharma (17465), F(P), 14 May 2001
WCHS Basra (19174), F(P), 11 May 2004	(His Name will appear between Wg Cdr DK Patnaik (17464), F(P) and Wg Cdr SR Reddy (17466), F(P) in the Combined Gradation List)
WCS Misra (19175), F(P), 11 May 2004	VS Sawalkar (17468), F(P), 14 May 2001
WCS Puri (19176), F(P), 11 May 2004	(His Name will appear between Wg Cdr AK Misra (17467) F(P) and Wg Cdr TV Kulkarni (17469) F(P) in the Combined Gradation List)
WCS Gulati (19179), F(P), 11 May 2004	AP Srivastava (17471) F(P), 10 Feb 2003/14 May 2001(NS)
WCH Bains (19180), F(P), 11 May 2004	(His name will appear between Wg Cdr TV Kulkarni (17469) F(P) and Wg Cdr SK Mittal (17472) F(P) in the Combined Gradation List)
WCS Sood (19181), F(P), 11 May 2004	AV Mokashi (17473), F(P), 14 May 2001
WCP Maheshwar (19183), F(P), 11 May 2004	(His name will appear between Wg Cdr SK Mittal (17472) F(P) and Wg Cdr AP Singh (17475), F(P) in the Combined Gradation List)
WCA Kapoor (19185), F(P), 11 May 2004	S Krishnamurthy (Retd) (17707), F(P), 14 May 2001
WCP Sharma (19186), F(P), 11 May 2004	(His name will appear between Wg Cdr PE Patange (17706), F(P) and Wg Cdr NB Sathe (17708) F(P) in the combined Gradation List)
WCR Mahajan (19187), F(P), 14 Aug 2004/11 May 2004(NS)	GAP Babu (17714), F(P), 14 May 2001
WCHRP Sharma (19188), F(P), 11 May 2004	(His name will appear between Wg Cdr S Kumar (17713), F(P), and WG CDR MC Misra (17715), F(P) in the Combined Gradation List)
WCS Sharma (19189), F(P), 11 May 2004	NP Ranjit (17727), F(P), 14 May 2001
WCY Singh (19190), F(P), 11 May 2004	(His name will appear between Wg Cdr B Chandrasekhar (17726), F(P) and Wg Cdr B Ramesh (17728), F(P) in the Combined Gradation List)
WCA Mukherjee (19191), F(P), 11 May 2004	S Arora (17729), F(P), 14 May 2001
WCAK Mittal (19192), F(P), 19 Jul 2004/11 May 2004(NS)	(His name will appear below Wg Cdr B Ramesh (17728), F(P) in the Combined Gradation List)
WCMS Deshpande (19193), F(P), 11 May 2004	
WCVVN Srikanth (19195), F(P), 11 May 2004	
WCS Misra (19196), F(P), 11 May 2004	
WCB Ramesh (19197), F(P), 11 May 2004	
WCZN Ahmed (19198), F(P), 11 May 2004	
WCR Chandra (19200), F(P), 11 May 2004	
WCSKV Vachhani (19203), F(P), 11 May 2004	
WCM Amerendra (19204), F(P), 11 May 2004	
WCM Mishra (19205), F(P), 11 May 2004	
WCRK Chaudhary (19206), F(P), 11 May 2004	
WCS Chowdhary (19207), F(P), 11 May 2004	
WCI Bhattacharya (19208), F(P), 11 May 2004	
WCSNair (19209), F(P), 11 May 2004	
WCAK Puntambekar (19210), F(P), 11 May 2004	
WCS Antony (19211), F(P), 11 May 2004	
WCM Kedar (19212), F(P), 11 May 2004	
WCP R Jayaram (19214), F(P), 11 May 2004	
WCNK Purandare (19215), F(P), 11 May 2004	
WCAV Kulkarni (19216), F(P), 11 May 2004	
WCKPS Virk (19218), F(P), 11 May 2004	
WCAK Gupta (18316), F(N), 11 May 2004	
WCEK Prasad (18600), F(N), 11 May 2004	

## EDN BRANCH

To be Substantive WG CDR (EDN Branch)

Rank, Name, Number, BR and Date of Subs

W/C B Abraham (Retd) (17396), EDN, 20 May 2002

W/C Kuldip Singh (Retd) (17397), EDN, 20 May 2002

W/C A Sharma (17398), EDN, 20 May 2002

W/C S Singh (17399), EDN, 16 Jul 2002/20 May 2002(NS)

W/C VK Verma (17401), EDN, 20 May 2002

KV SHANKAR

Jt. Director of Personnel  
Officers 2(B)

No. 307, dated 25 May 2007—The President is pleased to make the following Substantive Promotions:—

INDIAN AIR FORCE

WING COMMANDER TO SUBSTANTIVE GROUP  
CAPTAIN (TIME SCALE)

ADM Branch

RC Vidyarthi (15242), wef 01 Jul 2006

F(N) Branch

AK Vohra (16092), wef 14 Jun 2006

F(P) Branch

NR Mhatre (16078), KK Singh (16085), wef 15 Jun 2006

F(P) BRANCH

GK Sachdev (16209), T Kurian (16220) wef 13 Dec 2006

F(N) Branch

LK Pandey (16254), M Kalamakar (16252) wef 13 Dec 2006

ADM Branch

B Singh (16260), S Majumdar (16264), A Bose (16267), DK Sinha (16271) wef 13 Dec 2006

EDN Branch

HP Sharma (16276), VS Rai (16284), L Sharma (16285) wef 13 Dec 2006

F(P) Branch

K Bhesania (16246) wef 02 Feb 2007

AE(M) Branch

D Chandra (16747) wef 07 Feb 2007

ADM BRANCH

SQN LDR to be Substantive WG CDR

SK Khare (16261) wef 16 Dec 2004

AE (M) BRANCH

Flt Lt To be Substantive SQN LDR

Y Raut (22888) & RS Jayanti (22889) wef 16 Dec 2004

AE(I) BRANCH

Flt Lt To be Substantive SQN LDR

RD Sharma (22890), AS Mukherjee (22891), JS Malik (22892), wef 16 Dec 2004

FLYING BRANCH

Flt Lt to be Substantive SQN LDR

MM Tripathi (26304) wef 16 Dec 2006

N VIJAY KUMAR

Wg Cdr

JDPO-3(D)

No. 308, dated 23 May 2007—The President is pleased to retire Shri Dhan Singh, Section Officer, Ministry of Defence from Government Service with effect from 31.5.2007(AN) on attaining the age of superannuation.

S.K. DEB

Under Secretary

RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 309, dated 24 May 2007—On attaining the age of superannuation viz 60 years, the following officers of R&D Orgn. retired from Govt. Service from the date mentioned against each:—

Sh. Bhawani Shankar Nanda, Jt Dir, 31 Mar 2007, (Transferred to pension Estt. wef. 01 Apr 2007)

Sh. Dev Raj, SO 31 Mar 2007, (Transferred to pension Estt. wef. 01 Apr 2007)

SHANKER SINGH  
Dy. Chief Adm. Officer (A)

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 310, dated 28 May 2007—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No 11 published on 01 Jan 2005 under the heading "Regular Army, Permanent Commission," and sub heading "Capt to be Maj" the following amendment is made:—

For: 54682 Jasvir Singh, Inf 54733 Manoj Kumar Sirohi, AC

—06 Nov 2002

54703 G Kumar, ASC

—06 Nov 2002

(But Pay & Allowances wef 27 Oct 2003)

Read: 54682 Jasvir Singh, Inf 54733 Manoj Kumar Sirohi, AC

—06 Nov 2002

(But Pay & Allowances wef 27 Oct 2003)

54703 G Kumar, ASC

—06 Nov 2002

SHIV RAM BAIRWA  
Dy Dir MS-8C

CORRIGENDUM

GS BRANCH

No. 311, dated 24 May 2007—In the Government of India, Ministry of Defence, Notification No.....published in Gazette on.....under heading "Territorial Army" sub heading "Territorial Commission" is hereby amended as under:-

For (a) TA-41752 Lt Col PS Rathore, 01 Jul 2005

(b) TA-41825 Lt Col PK Mangotra, 01 Aug 2005

(c) TA-42172 Lt Col VM Sharma, 01 Nov 2005

(d) TA-41897 Lt Col KL Petkar, 01 Jan 2006

Read (a) TA-41752 Lt Col PS Rathore, 16 Dec 2004

(b) TA-41825 Lt Col PK Mangotra, 16 Dec 2004

(c) TA-42172 Lt Col VM Sharma, 16 Dec 2004

(d) TA-41897 Lt Col KL Petkar, 16 Dec 2004

N. KALAIAPPAN

Jt. Secy.